


ॐ नमः श्रीमहेश्वराय ॥
मानुः कुर्दांक ह्रमकस्थव
वाग्गुह्यवाकृकुलिंश्यल
लपू वैकथ्यह्नाउवि
ह्नन प्रज्ञायान लिमाउद

स्य ॥ अथ वक्ष्ये श्री
मन्त्रनाव विंशोवो
वरा अथ जपानैक १
नवाउ विघ्नहक्रका
युहल थकाप्रनैक

सह्दुदयह्व थ्वनिश्क स्वर्गे समस्त देवलोक मनुष्यलोक थहूयाविसं
मावइनाकि ह्रअग्गुर्वनाउ श्री श्वोभाववनसेहकह्उ अनागइष्टाक ॐ
यलपाकि आनुह्न क्रिय अहंदिन दमनयाकह्रेलाकि थ्ववक पव वर्ने वन
नकिफवपै विस्मक गुह्यकल महायावावाउ बउ ह्वं थव पथिस
ह्न थन्दे ह्नथाउ ॥ १ ॥ विवृद्ध पूजनी काङ्क्ष प्राह्ल लवसत्राव

[illegible] २
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

महाकवृशा॰ ऊगदर्थकवेश्यवे४॥ पञनाहाकिनवज॰थकिनाऊविछ
क्क॰ श्रुथिकग्र [illegible] न्यानाऊवान क्रु॰ध्वजयामत्रकाकिवननेह
महाक्रि [illegible] ॥ [illegible] ऊयव्रपस्महाकवनाः
नसैपव्र [illegible] सानया॰क [illegible] पव [illegible]
[illegible] ॥ [illegible] कुह्रुकुस्वायोर्मुद्धिके॰श्वादविग्रहव्रलिहि४ २

वहक्रुस्वकवेनाथे॰साईप्रघनकविग्रहे४॥ चिहश्वानन्द्यानाऊसेकु
[illegible] नहऊ [illegible] महाश्री धर्माहिमानाऊ वानक्रु॰वृडर्मासहस्थके
[illegible] थियक [illegible] नाऊ थ्यानके॰सवा
यन [illegible] न्यानाक॰को [illegible] नाऊ॰ [illegible] ॥ [illegible] प्रनैम्यनाथवे
वृहस्यावकनम्थाग४ हकौऊसिपुराहत्वा॰ह्रूदमाहस्किंहिः ग्रज४॥

नीसंव [illegible] श्री [illegible] निसथा [illegible] थसपालयाहू [illegible]
[illegible] धानिं [illegible]
कगानपानिस्यान [illegible] नापा [illegible] ॥ [illegible] मर्द्धिकायममनार्थय· मदेकेपाममवि ४
शा४ मायीजाताहिसैवा [illegible] थानहिरुवाम्यह४॥ [illegible] नजिपनिम [illegible]
[illegible] निं [illegible]

[illegible] वासनार्थया [illegible] मायीजालयाक [illegible] पनिस्यन [illegible]
[illegible] ॥
जह्नानपींकमामानी· [illegible] वाकुलवनमा॥ हिकायमर्द्धसत्वानी· मनू [illegible]
लाफयव॥ [illegible] नानान· पींक [illegible] नालम [illegible]
[illegible] पनिसमनी [illegible] लाकसम [illegible] नेमा [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

रश्मालया ... लि ... र्मी सिगक्ष ॥ ९ ॥ हगवंईहानकायस्य. महाश्लोघस्यगोत्यम
४ ॥ मैहत्गोरहानमलस्य ह्मनचूर्षिध्यंहत्वक्ष ॥ ... [illegible]
पिर्निम ... ललिहलविविक्ष. भैहत्गोस्वद्य ... गुल्यत ... [illegible] ७
रुयां. ... ... लक्षमे ... ... मा ... भ ... भि. हानमाक ... वाज्ञाव ... लक्ष
घसपा ... र्मै. हलपैहसागुस्वमा ... [illegible] ... यमाहल्य

१० ॥ गाहैप्रार्थोम्हदानार्था. महार्था मसमा छिवात्र ॥ आदिमध्यान्त क
ल्याणे. नामसं गिनिकि हृद्मोक्ष ... [illegible]
... [illegible] ...
... मगुहान ... ... गुल्व महाह्मन ... ... [illegible]
प्रानिया नपि माक्ष गनि ... ... [illegible] ... मगुप

थाकु अनुलगु ... मङ्गा॥ आदिसे. मध्यमसे. अन्तकालसे. मैगलसे
पूर्ण ह्रु पुत्रा॥ थ्वनानं [illegible] यथागु नाम्हु महाउकुमगु ब. थ्वनसे प
ह्रु अगु नथिंन [illegible] नामसेंगि तिमानस॥ ११ ॥ थानी निक्षिमांबु ७
ह्रे. शाछिथ्वनाह्रु नाग्रमा॥ प्रथम्‌ थ्वन्त्रा श्री सेवक्षा. याताथ्व कं पूनश्च पूनश्च
॥ ह्रुथ्व अन थिं [illegible]

नथा [illegible] लिसानं अह्लाद पकाउ [illegible] आथ निद मथ्वानं वह्रुप
निसथ्व नि. पूनश्च बानं [illegible] यागु [illegible] थिं नस्वश्री. नाम सेंगि तिक्षि
था [illegible] यागु मान्हु॥ १२ ॥ मायाजालमाहाकन्हु. याथ्वा स्मिन्ते प्रतीयक॥
महावरुअवनहय्हे श्रैप्रमथेमकुथा तिक्षि॥ [illegible] थिं नस्व थ्वनामसेंगि
तिथ्वब. थालमा [illegible]

मसीतिकी प्रकाश्यानताउ। कउाबक. कउा घलक. वक. धज. पनिसयनें. ज्ञान
नयाणताउ। कत्त्वहासकुन ध्वनामसीतिकी धयकु [illegible] ॥ [illegible] जू
सेनाभावक्षिद्धाम्मि. निर्ग्गंथविहूखमायप ८॥ यथाकुगाबानुमाई नाथस
द्धसंवक्रूगुरुक्क ह्वका॥ [illegible] सवुगानाम [illegible] यमाभु [illegible]
[illegible] लप. चितावैद्व वमाय अवरु हक्का धवसपाडवानान [illegible]:

वहू पनिसाने वक्ष वव पनिसयनें. मंवलपाडान वेइजिन वबल पाउ
पायथाय॥ समसाहासवाधासतुक्षी कवयहूवपाउ [illegible] यवकानू
पहितवतुलसानसाको [illegible] नियामिस्तून. [illegible] :
[illegible] वेष्व॥ १४॥ प्रकामगयिष्यससत्वानी. यथाभायविमषर ८॥
ज्ञागवक्रूगानासाय. ज्ञ [illegible] वहूनवहान्नयाण॥ [illegible] बानकावज्ञपाः

निध्वसमस्त सर्वदुःख प्रहीणा निर्याण प्रकाश [illegible] ह्याउाल ऐअ भगाइ
इव दकीमान्व कयानि भि हिंतै जवगा ब्रलेक द कोयाक सतवी [illegible] स्याह
ऊहियायकव ॥ १३ ॥ वैमत्थे सुगुरुक्न्द्रो वजपाधि स्थानकह ह्रमी
ऊलिपदाहला पूककवाय हिओ र प्रमदव ॥ [illegible] पादिखाक
जप्यमा कले ग्राम क्कमूलि सक प्राथैवा [illegible] याना नणेपार्थनायाना

[illegible] भलसात्याहाकनिया हस्थ हाऊ हलपाउ सिनकालूनाउाभक
मूनाया हुउ हवानाउ वहुयादिस्तेवा न हु लव ॥ १३ ॥ ऊस्थवमा हान
नाथापाउमव ॥ [illegible] प्राथ माया कगु भिलिवि भिनस्पूबासा ॥ ८६
॥ ८६ ॥ अथ सा स्कमूनि हगावा तृ मेदृहाद्विपदा ह्लमद नी र्घेम
र्याय काहुना लवीकाहरवमूस्या दुहा दव [illegible]

शाक्यमूनिधतिस्य नन्वऊ पामियाकनाउदवनान्धिंनम्रु शाक्यमूनिस्म
लस्ता नम्य के दृह्नव थान्न ज्यागु [illegible] ॥ [illegible] पिंन स्क ह्र गन्वान
थाँ [illegible] सा सन हृ दवलाक [illegible] [illegible] कः [illegible] लोक सेउ १०
हृ म सहा [illegible] दु ब न धविष [illegible] [illegible] गु डिमान्ना श्रीन [illegible]
विडकाकत्ना ॥ [illegible] ह्मि नँ शाधु स्यह्लाखानी मखाय प्रयाख्याय न [illegible]

शाक्यमसकल नैश्च कुर्मासा लिसासनैय ॥ [illegible] नैभ न्धिं नम्र शाक्यमूनिह
थाँ सताव्रमा [illegible] श्रीलाक्यायाकह्व याऊ म्रसु [illegible] नह्दि ज्ञाठविड [illegible]
[illegible] कालखानाडाथ [illegible] [illegible] [illegible]
हृ खाय हहब प्रथब्रहा लिदुविपाप [illegible] [illegible] आ न्यक्ष [illegible]
[illegible] स्याहु मालयाना डाबान क्रन्वदु भोव भयाः [illegible] पक्ष [illegible]

त्यक्तनं कर्म्मदुमनाविरश्री ॥ ३ ॥ श्रीलोकमाधनपिताः वृक्षम
धूनयाति ॥ वा ॥ पुण्यव्रतअकनुस्वध्रा: वकपाहिमहावले ॥ वा ॥ थिनस्व
प्युक्म् निश्चमम् दिहक पिडायक बाहना: स्वयानुयाथवृक्ष आद्व: ११
कुलाक अयस्वानं भक्ष पानालदे नायदुं गुमन लसवुलमाद कु ६ गु
पयापुगुठाय्द थापिनक मवुलं थंदेवज्र पानिस्याम ठडेयद मथिलि

॥ ४ ॥ साधुवज्रधन्य श्रीमान्: साधुकवज्रपानयया ॥ यह्वे ज्ञाडि
मार्थय: महाकनूम पान्विक थाहनेनहपसाधुमनिपनी स्पतकहद
यकाठ विज्ञान आल मा: दु वृजपानिगुहक: वैन्य २ जिगानाय वृजजि
कदत: पक्ष गाम सीलल खांतहिकयायगु निर्मिलिं न: महाज्ञाग
पाक्वनहन्ताक्व महाकानूनावक खडायक कहा दययवाली ॥ ५ ॥ यां

महार्थ्थनाम संगिति । प्रथिक्राम घनास्तनि ॥ मेह । श्री ह्यानकाय स्यानकृत्ये
कैस्मूयक थ ॥ ला वज्र पा गिनाथिं तुरवङ्कुन ठठा । महागुस्मकलेया गुरव
थगुना स सं गिकीव या गुस्मम स्ठ घ सं ह्म व या प्र । वि ज्ञ स्याय गुथे गुकथ १२
नथक श्रीम्ने ह श्री या गु ह्मान म कृथ्य वङ्कुन ठठा थक श्रा ह्मादयकल
॥ ७ ॥ हस्ताथ्यदंग पा मद्व अहंगुस्मकाधिप ॥ भूसत्वमकाय्रनना

हस्ताथ्य रुगावन्त्रि कि ॥ हनेममस्त ध्वपाय माद्य कोपीडा । थगु लिकथ्य
मस्या गुक था अलमा मेह श्री या गुकथ्य ... मेह श्री गथिन स्त थाल
मोह्मन गाविछ थ्यथिंन स्म या गुक पाञ्च ... थाबड्ड । ... माबया ला ।
उ ठठा जं नि कने स्त लथक श्रा ह्माद्य ... ॥ ८ ॥ प्रकिथ्वनाम । थाप्रह
॥ थ्य किलिम सया थिं निद्य ध्यगु सिङ्गोक ॥ ८ ॥ ॥ अथ सम

ह्रीहनक्कान. सकलमकुकूलेमहकु ॥ मकुविद्याधवकुले. व्यवलोक
कूलकुथी ॥ त्रुपपतैलिवकुपानियाकल्हेहनै ॥ ष्यसूलिनै. पूनर्वाव
वकुपाशियागुकुनापव्वनहनाॐ. ष्टुलिकुससदनसथ्रेलं. वृकुमा
लैयागुरवञ्जादसविली. सनकवादिनियोकथाये. सुञ्छिपालञ्छियास
कुयाकुलभभकुराथ. पलपथासग्रीलहनापलैहलीं. मकेवियाव १३

वलपैवानकूवाविसलसकले. ध्यपनिसकलीहलीं. व्यवलाकिद्य
गुष्पसष्यकूलश्रीमहश्रीलीहल ॥ १ ॥ लाकलावीहलकूलें. लाका
लाककूलीमहकु ॥ महामकूकुलीवाग्रे. महाक्लीखवकुलमहकु ॥ ष्यलोका
लवधर्मलाकपनिथससाम. ष्यकनिक ॥ निकुलिकूल. धसध. ली. ष्य
कयाकुलस्वे. महाकुडाकुमूकूष्यवकुमूडाकृदियीञ्र. ग्रस. डलम

कुलथ्वसपाल, महासुखचक्रसंगुलया: कुलथ्वसपासहुलीं॥
२॥ षट्कुलावलोकनगाथा ॥ पञ्चुलिकुलयागुरुस्मिलाकनि
पुगुथ्व॥ ६०३॥ ॥ ॥ कुमौर्वम्नेकृनाजानी, सँयुकामहवाढ १४
यी॥ अकृत्यादवस्मिनीगाथा, हारवनें: स्मिसिनाल्यहं॥ भूर्जहापायागु
पञ्चुलिकुलडु: समस्के मनुयाश्राज्ञे हयपवमार्थब्रकाकालखदू

यगुनः ना, अकृत्यादवर्म्मिनीगाथा॥ धाय ज्ञूनकथर्म्मन, सँपञ्च
याताथ्वानगुगाथा, सर्व्वहस्तु, थ्वागाकयनिस्यनज्ञास्यकथागुमहेःश्री:
यागथ्व ॥ १ ॥ अज्ञाकुलोउकु ब्रह्मगोर्ने मह: ॥ हिलाहृबि
४॥ ह्लानमूर्हिनहंवज्ञा, वज्ञानीग्र प्रवहिनी॥ थ्वहादशंकुलथाय,
पवमाङ्कवहृदयस्वानगु, ह्लानमूर्हिविपगुलिसिअर्घीयवज्रमूर्हि

हृयितः ॥ वज्रयानाम्लिसिद्विवानरूयामदृयाउं ॥ २ ॥ ॐ वज्रतीक्ष्ण
दुःखच्छेद प्रज्ञाज्ञानमूर्त्तये ॥ ज्ञानकाय वागीश्वर अरपचनाय ते न
मः ॥ ॐ वज्रधर्मगुह्यनाशनाः तीक्ष्ण दुःखच्छेद भञ्जनाय दुःखध्वंस हृदयगुह्य महा १२
ज्ञानमार्ग कृष्ण प्रज्ञाज्ञान सर्वकायगुह्य महाज्ञान पद्म महाज्ञान शिव सर्व बलपू
र्ण ज्ञानकाय वागीश्वर कायगुह्य पद्म महाज्ञान धर्म लत पविरुक [illegible]

हृत्श्री त्वं अरपचनाय काश्यपं मञ्जुश्री यामकुथधि धर्मपद्म सर्वया
कनभक्तास्तु ॥ ३ ॥ मायाजाललितसंवाचिक्रम सर्वधातु जिनस्य ते
याज्ञालया पद्म मार्ग धर्मस्य कशाप्तुध्व ॥ ३ ॥ हृदयपाद
गवान् वज्रधृक् सर्ववज्राः कालसंभव ॥ अकाल सर्वबुद्ध महाभिक्षुम हाप्रोप
नमाम्यहं ॥ सर्ववज्र पाश धर्म पापविपादिना प्रकाश पाप ज्ञानस्वरूप

नें॰अकार॰ण॰आ यनतु ॥ अकाल थ्यया गुगा थिंन स्म मकला समस्त जक
थ्यया मूलगुरु ॥ आदिं अक अलोदिं बुद्ध स्वभूपगुस्वनगुसिनि लहं कल
थेंसा वोंत यनपुरव ॥ १ ॥ महाप्राणो ह्यनुत्पादो वागुदाहारवर्जित १३
ः॥ सर्व्वाभिलापहेत्वग्र्यः सर्व्ववाक्सुप्रकाशनः ॥ ४ ॥ हनें गाथिंन स्म महाप्री
णाचिके थलसा महाप्री हलं कहें हाप्र लाद्धसकनुप॰थमाधपमनेउ

याहि ह्याउं विघ्न कल्म ॥ हनें गाथिंन स्म नमथिं नगु वचन स्वांसिं कल॰सा:
थमाउँ॰ समस्तयाकहं॰ आदं॰ लिविउ श्म॰ नम॰ सम्मियाहे हुमलश्च
या गुग्व॰समस्त वचनक्रोकउ न्मया क्वन॰कें॰ स्वरूप॰ सिद्धिद्व या
कम्म ॥ २ ॥ महामहो महारागः सर्व्वसत्वरतिंकरः ॥ महामहो महाद्वे
ष॰सर्व्वक्लेशमहाविपुः ॥ हनें गाथिंन स्म महाप्री आनलसा लिं आं

कसूनमकनामदूहनैसमस्कुप्राग्नियाहृदयसैःक्रीजायानाउःक्षिकिनवि
क्षावायकजकिनउाघनक्षःहंछमनीयेश्रीहलवगेहूक्षसमर्लैथनानाद्र
द्वमान्वकृक्षःद्रठखहानदाउःक्षस्तक्षयगक्रमद्दयक्षक्ष ॥ २ ॥ महामह
महामाहाःमूर्द्धीमाहसूदनठ॥महामहमहाक्षाक्षःमहाक्षारवनिदमहा
नृ॥हनैमतउानापैमाहमड्रजह्मनउपदशामविउःकउस्वामैकेउवनम १२

नैःकूक्षःत्रिक्षयाकमान्वकृमःमाःहलैगपिंरुक्रःनीनःकउान्वामैक्राध्वनिस्य
दवयानाउामान्वकृ नउान्वामैक्रावेयानाःक्रम्यक्षामिनकउान्वाकनैक्रः
याकमान्वकृक्ष ॥ ४ ॥ महामहमाहानाःहःसर्वेलाहतिसैदनठ॥महाकामा
महालोभक्षोःमहामादाःमहामकिठ॥ नैक्रःजिनउान्वाकनैलाहवलनसैहः
कयानाउान्वानथ्वलाकयासमसःयानाहृनान्वकृक्षःदनैगपिनरुम्वल

गासमञ्छ कामूनाफ्ललहि घरछउ। ममहासुख आनन्द विउआम्ह. हनेगाथि

गुहर्षमान सेह काखल सानूफि थं घतोग्ममान्ह इआम्ह॥ ॐ ॥ महानूप

महाकाया महावर्ण्णो महावपुः ॥ महानामा महोदारो महाविपुलमण्ड १८

लः॥ हनेगाथिनम्ह सेह थ्रीखलसाम्हफिनसं घवबूपडाम्ह ज्ञानि कडा:

घनगुसबोलपथिविसं मह्मनगुबूप॥ हनेगाथिम्ह खनसा महानाम:

ज्ञापुा कउाघनगुउ खांवया। कम्ह महाल्लागि समसदउा मनूष्यन. नाम

कार्सं नअाम्ह. महान्वङ्गु यानायकम्ह॥ ॐ ॥ महाप्रज्ञायुधधरो म

हाक्लेशाङ्कुशोग्रणी ॥ महायशा महाकीर्त्तिः महाद्योतिमहाद्युतिः

हनेकडाघनगुसम्हखलमपंविम्ह कम्ह. गाथिनगुसकुखलसा. महा

ह्मनसमूखलनपी ग्रिक्कंप अम्ह. हनेगाथिनगुयं. ल. हाम. महाइंदवया:

स्यव हाद् मेयायन महा श्रेक्रास्यवलपु कडाथनऊ स्वानाडामेगालऊ
हृ सकीर्हियाक क्क हने महामायायेन क्षे ॥ ७ ॥ महामायाधरो विद्वान्
महामायार्थसाधकः४ महामायारतिरतो महामायेन्द्रजालिकः॥ १९
श्रीनकमैहृश्री यक भ्रल साकडाथन महिमाय्व क्वन ञ्जनामा याकः
नश्रा हानसहृ ह्मिनकाडो विख्याक ञ्जमहायेदिनप्पः हनेनाथिंक्रउ

साहाप्रार्थउहूनथद्दवियाउभ्वालप्प हने थ्वसैतावसमायास्त्वंहूउ
श्रालकनाञविख्नक्क ॥ ८ ॥ महादानपतिः श्रेष्ठः महाशीलधरो
दृढव्रती। महाक्षान्तिधरो धीरो महावीर्यपराक्रमः४॥ नाथिंनक्ष्मैह
श्रीनाश्रालसाः दानपतिश्रेष्ठ आयर्ञ्जनकमहाकडाथनउदानयाक
क्षमहाशाक्षिलः महाशानिकः हने मयालबसै नप्पः हने महाक्षैगान

कुमावङ उलमक हुनमुयाविनि पयाक लिमयाविनि वलुआक मध

॥ ... महाध्यानसमाधिस्थो. महाप्रज्ञाशरीरधृक ॥ महाबलो महापा

य. प्रणीधिज्ञानसागर ९ ॥ गर्थिनक मैत्री श्री ... महा ... २०

माधि स्थाश्रय. महा ... घनस्तुस माधि ध्यानस ...

नक. थाल साक्नक ... महाज्ञानस बिल यलनपं ति स्थाक ... ग्थिन

ह्री महाबलक महाउपाय ... ज्ञान यासमुद्रस्थ ॥ १० ॥

महामैत्रीमयामया. महाकारुणीकाग्रधी ॥ महाप्राज्ञो महाधी

मानु. महायाय महाकृति ॥ गर्थिनक मैत्री श्री ...

... याका प्राणिया महाक ... याउ ...

थिनक महाप्रज्ञा ... थाल साग थाग नयाउ ज्ञानक ... ॥ म

हाउपकाग्निहयाउ। कुउाहृचनक्षायैयायहुउाक्ष्यसपाव॥ ११

॥ महाग्राह्निवगपका। महाववैप्रमहाउवद्वं महद्धिंधामहिमाक्षाम

हावलपयाक्रमः॥४॥ [illegible] नाचिनक्ष [illegible] महाप्रकाशप्रद्धि

अस्यकुउाशाकवैवल [illegible] मीमहाव गावल [illegible] कुक्षहूयः तिर्नी

हुउाधनक्ष महाकुजवर्न्क्षसमस्त्री ध्वसैमालयोद्योगिश्याजवदः

२१

महापवाकर्म्मथुउाक्ष्यसपाल॥ १२ ॥ महारत्नवाद्रिसैहर्ल। महा

वज्रववाधनः॥ महाकूवामहाधोज्ञः। महारत्नहयीकवधर॥ [illegible]

क्षमेङ्श्रीनाक्षालसाः [illegible] धमीगावनुर्वकचूर्णयाजाउामा

नकुगुध्वसपाव। [illegible] याह्वानचेवनपुद्रिङ्क दाक्ष। महाहव्वोम

हावोड्रोक्षव। पायविघूजावृद्धिजीकम्भानायक्ष। हनेवक्ष महाल

यानकक्कयास्तिंःमहारुयंकलक्कःसमस्तुविघ्नयाकरुयविउाक्कध
क्कः॥ १३॥ महाविघ्नारुभानाथाःमहामन्त्रारुभाप्तनुं४॥ महायान
नयाबूढाःमहायानननयारुम४॥ थ्वथिंनक्कमेंरुश्रीक्षनसामहावि
घ्नाधिपःपउक्कविमहाविघ्नाःमिलमक्कनउाकउा थ्वनयुमक्कयाप
त्रूरुयाउाविघ्नाःकक्कमहायानयापथ्विपाकिदयकेंउरुमक्रियाय २२

उाक्कःथ्वथिंनगुमक्कविघ्नासउाक्कहनी॥ थिंनक्कमहायानक्रियान
क्रीयामलगुक्कउा॥ १४॥ वज्रध्वाकुमहामङ्गुलनाथा॥ थ्रकुर्द्दश
॥ थ्पाकिल्पाक्कमिमपथ्रमहामङ्गुलयाउुक्वहरुल॥ ॥ १५
५॥ महावेनाव्वनाबुद्धाःमहामोधिमहामूर्धि४॥ महामङ्गा
नयाहराामहामङ्गनयाज्ञक४॥ हनी॥ थ्वथिंनक्कमेंरुश्रीबाकाल

सा॰ श्रीदेवाचन नयपानानदय थिनगुरवलव महाहाव्वक मान वर्म्मया॰
ह्नन॰ धर्म्मनयाक मू महाकप तह हनी ॥ थिनगु महाम्मकुउ याहि इडा
गुमक्षकल महि कवाथिलसा ॥ १ ॥ दशपावमिताप्रश्नो॰ दशपाव २३
मिता थ्व थ॰ दशपावमिता न्हुछि॰ दशपावमितानयथ्व ॥ हनैशील
पावमिता॰ दानपावमिता॰ क्षान्तिपावमिता॰ विर्य्यपावमिता॰ ध्यानपा

वमिता॰ प्रज्ञापावमिता॰ उपायपावमिता॰ प्रणिधानपावमिता॰ बलपावमिता॰ ज्ञानपावमिता
हि ह्रिपावमिता॰ थ्वते ज्ञ दिन दसपावमिता॰ ज्ञत्व सल ल्व बुपञ्च हनैगु
थिनक्ष मिगुपावमिता याल दिन ज्ञा सयह का उ यात्व वप हनी थ्व दस
पावमिता सहकाकोन्ह नल पाउ॰ ल्वाकउ थवद हाबड मियाना उइह उक्ष
हनी दसपावमिता नेव ल नपानी निर्सि प्रविष्ठि याक ॥ २ ॥ दयाह

मिन्वयानाथ॰ हृदयाह्मि प्रकिषिक ४। दशह्मानविशुजा मा॰ दशह्मानवि
शुद्धम्बृकव। हनेगाथिं नक्षमं इ श्रीयक आलसा॰ मिगुलि ह्व वनयाखामि
मि गुन्ने हमियानायक गथिं गुहु वनगाथक आलसा॰ विमनाह्मि स २४
हृदया॰ इन्द्रं गामा॰ प्रहाकनी ॠ विषकि॰ निवृ व कि॰ प्रहाकनी॰ ह्मासवनि
जुकनिहृ॰ ख्व ख्वावकि॰ थ्वकियाख्वाकि॰ हनेगाथिं नक्ष आलसा मिगुवि

वपुआदिनस विनपाल॰ याव मिफाने॰ विवर्द्धयानउवडियाना
आमलवया उवानक्ष ॥ ३ ॥ दशाकागादवाथार्थ्य॰ मणिन्द्राद्व
वनाविहृ ४। अनोघ विन्यार्थक॰ ॥ दशाकागाव शीमहान ॥ थिं
नक्षमं इ श्रीना आलसा श्रीकथा गह काादिने स्निमिगुविजाकादवि
नकथागानवङ्गयाम आखव्रु य॰ समह ध्वसंहावदयका। अभिगाप्र

कालनंछु श्रीयखासयाकथिन थुथ्वसैसालयाथ्याकूलम॥ ४ ॥
जूना दीगिप्र पँवात्साशुङ्मात्साकथ कात्मक ४॥ हनवादीयथ्याव
दी॰कथाका लिङनन्य वाल॥॥ थिनक्षमेह श्रीनाथक वाल साच्व
सनैव्यादिनै नक्ष दउँ मङ्॰सैसानस॰पाप क्षूदिनै दाखनैमथल
निर्थ्वलाग्वि छु॰अछ याहानस्व वूप भू॰ह नै॥ थिनक्ष पूथ्व कालन २७

स्थुछदकीथ्या व्दादख ज्ञाकक्ष॥ थ्यझाक हल ज्ञ थ्यम लछु हथ्यी आथ काम
थ्य॥ हपनिस्थन क्षा ह्लाद यकाउविक्ष नै॥ ७ ॥ अथ पाद्य यवादीवनस
क्वाटि थाव क्लिक ४॥ नैवास्यसिँ ह्वीनाद॰कूटीर्थ मनरों याव ४॥ थिन
क्ष मेहू श्रीनाथक वाल सा॰सम सछु क्रि आउ कुथास॰ निमि ह्लिन उत्पाकिथ्या
ज्ञाऊ॰थ्वसैसाल दयकू क्षडाहिथ वँ पैच क्षान ज्ञात्साप थ्वरह हज्ञात्सोथ्वा

नमःहनंध्ववनयात्राक्राःसिंहयाथिनगुपत्राकर्म्मधउाथ्ग॥ ६ ॥ सर्व्व
स्वएममाचरमि: क्थगाकमनाजब४ धिनाजिमाविविजयिन्वक्कादहिं·
महावल४॥ गाथिंनम्रथधमें इ श्रीचवकथाल्ल हाःसमस्त ध्वसीलालसउ २७
सहनपेंइ उाक्वगाथिंनस्रनन याथिंन ऊँउमऊन थ्यौबाऊा ध्वनसः लसम
स्तःखाक्रऊायनधूमहंन्वक्रसेंवानग्रमहाचीदेवलउाक्नक्रध्वसयानं

॥ ७ ॥ रामसुख्याथगाधार्ग्गोजाएध्वहवगानपर्फिव्वमि ॥ महानसाव्वचोवया
क्रूतनयामहानय ॥ हनंगाथिंनस्रमें इ श्रीचवकथाःसःसमस्तःगनया
मोक्रमहाव्वयोध्ववङ्क्षुर्म्मसंचानयाथाक्रलमनयाव्वसीयाकाशम
हाप्रलावधनस्र: त्रकाकार्म्मात्मा खायस्क्रपुविसर्व्विलत्वीइयोऊँथि स्वक
स्र ॥ ८ ॥ वाहीश्ववागपर्गावापूसी: वाचहयकीवघकनी॥ हम्सवाग्रःसत्य

वादीन्वच्वदुर्सर्स्लोपदंमकथ॥ गार्थिनस्रश्रीमेहूश्रीआलसाअन्तगवच्वन
यास्वा॥सिहृयाउाअन्तकथ्मकथाअादिपन्ऽअजगपूर्नानयागु॥वावा
नयाकस्रध्रसपान॥समक्रुयावच्वनयाआगाङ्खध्रहर्नैसल्पवच्वनहूको
ज्ञानाआविष्मकस्रअसस्यवच्वनमज्ञाकस्र॥हनैमोप्रिकनूनामहूदिनाउ॥
पज्ञाध्वकपमायागुनलउपदंतविसन्दानस्रथथिंलस्रध्वविङ्गयंकस्र २१

ब २ बअन्वेवर्हिकाहूयागमी॥स्वज्ञप्रत्युकनायकथ॥नाना॥निर्याान
निर्याान॥महाहूनेककान्नगथ॥ हर्नैगाथिंलम्वेधक्रमेंहृश्रीयाबकआल
साङ्कूकाकी॥सुमाङ्क॥निमाकाहूमङ्कू॥पङ्ग्रस्नासमक्रयीनायकस्रथ॥श्रो
वकप्रत्यकु॥महायान॥ध्वनअादिपनेअन्नागनिर्याानन्ङ्गगुवच्वन॥ध्वप
थिवीक्राापनजवायू॥अयासर्सेअयाललनैयीवहूनअन्नायागु॥सल्पच्व

॥ १० ॥ अर्हं ह्रीं श्र्यग्रवाहि ह्न वेकता ल जिनेन्द्रिय ॥ क्रमप्रापाकार य.
प्राप. श्री मिह ना हम्मविन ४ ॥ हनं अलिहं नया. अयहि ह्न या. ना अन्न य.
वीहनारा कम्म स यानत धलनपूज. वीन्त कूं कौ या ऊ यत ल पूज. समर्थ
ह्ल ऊ मा क्ल प दना क. पयाक अयाम हयम म्वा व क्ल धसया ल ॥
११ ॥ विया व्वनगसें पन्त्र सू न गपासा क वित्यन ४ ॥ निर्ह्णुमानि वर्हं काय

सत्व दय न यास्थि न ४ ॥ हनंगा थिं नम्र ध्वम्र मेंहु श्री व कमालसालसें क
मासू सचलनपा ऊ विस्ना क ग्र. म्र गानक्षयकपागत पा गु. मध सत्वानस्र
धस्ला क या का न नम. सत्वप्रानी सम स. याक चव न हृ ल सा न मव नाक्व
नमड अर्हं का ल ध्य या गु मड. महाकामलम झ ज्वदं गत्व स्वो न ख्ल ॥ १२
॥ संसालपाव कार्टि ४. क्र न क्रज्ञ ह्रक्क व स्थि न ४ ॥ फें व व हान नि स्क्रु न्यु

ह्रा स्म्र्या विदाव श्ठ४॥ हलैध्वसैसालपालयानाउअवानायाचमालधकापद्व
र्थयाना. नानाउधासनायथावे. क्ष्नल्हेवह्रानमाक्रुपदविउअकथ्व क्ष्ह्रा
नमावक्ष्मश्रीमैह्रुश्रीलैह्रलध्वसाम्हृयादैयलठ४॥ १३॥ सर्वधर्म्मो धर्म्म २९
नाह्राश्यानू. लोकालोकठ४ कलैपव४॥ धलश्वयाधर्म्मनाञा. ञ्रयोमार्ग्म
पद्दशकठ४॥ हलैनाथिनगुध्वक्ष्ह्रानहूर्हेक्ष्मध्वहूहूलयाकाञाह्रया

ञास्हाकठऔंकनापिनद्ध्रधालसाध्वमनक्षुयासिह्रायादधस. हाक्षु
र्थे. उकिस्वानक्ष्मपवन्मसलनध्वसमक्षयीनायक. ध्व४ध्वश्रावकप्रथक
मलायानस. महान्नातैद्रनविघ्ननाउक्ष्नन्यकानीनयानाउ. उध्वम
लैष्वपश्चोन्नापकर्कवाद्वन्नाकाहने. धैवह्रकन्नात्मायाकमयाथ्वञ
याउविघ्ननक॥ १८॥ सिद्धार्थसिद्धिसंकल्य. सर्वसंकल्यवर्द्धनाय॥ सि

विकल्पाऊपा भनु॰धर्म्मया नु पवो वाय॥ हनं समस्त अर्थसिद्धि या क
भस्तकल्प॰याका मफूपामभाक ना नवि हृ याव विकावस कल्पमका॰
नहुआविकमहूसायमह्र॰साधैद॰ धर्म्मयानु याका लनसलन्य
लनसायमहूस्य॥ १२॥ पूर्व्वं वान पूर्व्वे सैताबा॰ह्मनह्मना कलैम ३०
हनू॥ ह्मनवीसन्दठाह्मनीस्त्रैशावह्येयसहनवे॥ गध्विनसूधमैह

श्रीनाथकभालमसाय हापुं स्ववैन॰मनायुनलयाकमपुं स्वयाहाव॰म
हाह्मनवैहह्मनमयवपु थासइव इदुडाय हुनैधेंच्चहहइवनमह्
पवमापुंह्मनथ्वविमान इवैमिडाथ्वमपुंस्यसैतालह्मनसैकालथ्व
विकापवमापुंनऊनाकयायस्थ॥ १३॥ साश्वकाविश्वबाथ्यारौ
भनैछेयाधीयीपकि॥ प्रह्लादस्तवधाहस्वन॰पवसाद्यस्त्रियायद

कं॥ ध्वनाथिंन क्रमेरु श्री धक आलसा ०॥ थालमेरु यमदु कं॥ मा कं याथ
न सम स क्ष थ संसारन या ना यक कं॥ था गाह कि नें सं ऐनथा य॥ गा थिंन गुथ्या
न याय कं॥ गह्वानक्रो हु धक आलसा॥ महाबुद्धि पुरुकासयाना उ॥ समस्त आ
त्मानसं पूक्व हउ कं॥ गाथाल सं न्व नय थाय मस्कुउ ढं याखिनं क्रो दिस उ
या व ए॥ पूर्व याउस त्रिलहान या गुस विल॥ धर्म्म याउ सवेत॥ ध्वसकाव ल ३१

व पूर्व कउस म सत्वमेरु श्री थ्वय कं ध्वकं॥ १०॥ पंचकायात्मको
हं ६॥ पंचज्ञानात्मको विहरू ७॥ पंचबुद्धात्मकं ८॥ पंचचक्षुन
सींगह्वकं॥ हुवे धपूर्व थ्वया सवेल॥ आदिवं ढागुलिम विलव
लनपू॥ पञ्चज्ञानथ्य वढाप विहान सवेल संसं क कं॥ नुपंचक
था गक या पुमकु ना नपूर्व उ ढाक कथा याक या उ॥ हनं ढागु

तिवकुस्यपसिवाकनाउावलपाउाविरक्कमँ॥ १८ ॥ऊतक
सर्वेवज्ञानीं बुद्धपुत्रपवावनः॥ प्रज्ञाहवाहूहवायानि धर्म्मया
निहवामक्रकृ॥ हनगाथिंनक्कमँहश्रीवाचकथलसासमक्र ३२
थ्वनथागाकयावबुहराउासमस्ववड्डपपुँवऊापलपुपक्र
ज्ञाथायज्ञानथ्यज्ञानथ्वः स्यानि थानधर्म्मयाऊानयाथानह

हसँ थ्वसँसान्याकक्रयसान्वकुक्क॥ १९ ॥यनेकसायावक्कास्वान्त
थाक्काकाऊनात्यमि गाताद्धमहू कवश्वयीह प्रज्ञाज्ञानानलामहान्
॥ हनीगाथिंनक्कथ्वक्कमँहश्रीवाघकथालसा स्वमर्स्र घनयाहालसा
क्काहवऊयाम्वपगुसनीलक्क थमथ्थमनैऊायनपक्क थ्वज्ञानं
याग्रुत्रनिथेछनक्कथ्वक्कमँहश्रीहव॥ २० ॥वेवान्वनामहादी

पि·ह्लानङाति विश्वन्वनथ॥ ऊमात्य दीपा हाना को. महाकङापुहा म्व
ब॥ थ्वा पिंन म्ह मेह् श्री मवसा श्री वैराज्वन थ्विनम्ह. महाकङ वक्व
थ्व ज्ञानया ङाति श्व थ्व म्ह थ्वेनाव्वन हलसा नथ्व ङा ताक सैसान या मथ्व
डा सुम ऊ प्रकास या स्या विश्व कम्ह थ्व डा गुम ङमाऊ प्रकास या नाङा
ज्ञान मानया स्या विश्वाकम्ह श्री मेह् श्री थ्व का॥ २१॥ विश्वा ना ङो गुम ३२

मके संस. मकुनाङा महार्थकृत॥ महाज्ञ पाहनाज्ञ था. विश्वदर्शि
वियर्थकि॥ ना पिंन म्ह मेह् श्री नाथ के थाल सा दवा विश्वाया नाङा
नैह्याऊ विश्वा कम्ह. ह नैज्ञ त्वाग मैत्र या वोङा त्वैह्याऊ विश्वाक
म्ह हलै महन्व ज्ञ वर्हिहृयाऊ न्व त्रया ज्ञ दहनखा मिह याऊ तैल
त्रयाहाव डुर्भेन पाव कह्याऊ विश्वाकम्ह॥ २२॥ सर्व्वबुद्धानं

कर्म्मे॰ जगदानन्दजीवन ४॥ विश्वरूपीवि ध्यनाच॰ पुष्पमाण्याम हाराषि॥
हनेगाथिनक्षमे हृ श्रीनाथ क मलसा समस्तं थ्व नथ्यगाकयाहृ उडव
ड ध्वर्थ्य सं घम्या हृ उड न्वा दथ्व जगत सेसा वेया वव हयाउन्ना नन्द्या ३८
कागुमिश्वा ध्व समस्त यो दव का यागुदृत्व पथ्व समस्तं ध्वसीलादय
कूस हनेगाथिंनक्ष थ्व त्वसा समस्त दवगोमनघो थ्व न्नादिपिनेपक्रा

या नाउन्ना दनहाव मीनया कक्ष थिंन कुथ्व सया वहलं॥ श्र
॥ कुलहृयथ वगो मल्लिं॰ महासमयवज्रदृक्॥ वज्रगृयथवज्र ४। एहु
श्रियासो हृमदगाकथ॥ हनेगाथिंनक्षमे हृ श्रीनाथ थ्व नसा महा विश्वा
याकालक्ष्मा दीनं॰ खगुलिकुलथ वलजेन्वा दमहासमयवज्रक्रया मेघू
लवृप॰ वज्र क्रादिनं॰ खगुलीवागुवलया मिद्र नेश्रावकप्रशकम

हायान थ्वया उ पदम विउाक्क थथिंन गुउत्य ह्रियागुथन ॥ २७ ॥
श्मोघ पाम बि थी वज्रपाएं मम महा ग्रह व विजीकू समा महापा श्म
वज्र हे लव शीकल स ॥ थथिंन क्क थ्व क्षमेश श्री थाव साजु माघपासे ३७
लैक्क लया व महा ज्रय इ ग क्क हनेन व ग्रह आदि पनेथ्व वज्रयासे
नेन्विस व थ्व न याय क्रु उाक्क वज्रयाश्रीकूस सिघव यायास थ्वनलपु

घथिंन क्क महाजुधाव मह्रिं क्क केव वज्र आदिनै महाहयविउाक्क थ्व
सयान हवे ॥ २८ ॥ शुविशुद्धवर्म्म वन्तु स्थान गत थाः पैच विंजागि
॥ थ्व कि निर्म्मल धर्म्म वाडुयागु घनीय हापुगु थ्व स्नाका इव ॥
॥ ०(०३ ॥ क्रा थनाद घक्क थ्वालीम इवक नक्रा इवइह आव लिष ॥ इक्क
कलांलकं कोला हना हवगोमानेनक्ष ॥ हनै क्रार्धयानाजात्वंथ सपाव

थयापुत्वाव्रषूपाकषूवदअक्कलयाःमिश्वाःषुकावाहाकःमहावल
ठाक्कक्षकोकालमवूफिहतेहवाहलथयाक्षःसकक्षिपाकझालनेसी
हक्कहठाक्ष॥ १ ॥ यमाक्कोविघ्नवाजःवज्रवअहचीकल४॥ वि ३६
घ्नस्ववजोहवज्रःमायावज्रोमहाद्व४॥ हनेधर्म्मयात्राजायाकविघ्
याहसपनयायह्लाक्षवज्रयावक्षणनेःगथिमगुमहावज्रयाव्यागडी

कुनाथकथावमालमहाहुयीनकक्षवज्रथलःवपुक्षःमालसाथठाहु
र्दयक्षायनावलेसेथवज्रथलनथाठोमायाव्क्रसेवज्रमहाव्या
वककठावलक्ष॥ २ ॥ कुलिशव्याचवज्रपानिःवज्रमन्दावरूप
म४॥ ज्वलेवज्रपाटापाःगजेन्द्रमापमार्कटकू॥ हावज्रपापि
याप्रुथमसेउत्लिक्कनःवज्रगहक्षोकावमपिनक्षक्ष्टुजमगव

ऊ यन लप क्व या. नाथिंन गुम र्हि नाखल सा. नन खाय मनू ऊँ या
गुङा गुवि विं. सिया गुङा गुलिन द्यया उम्बानक्व ध्वमपाव ॥ ३ ॥
हाहा काय्य महाघाया. ही ही काय्य हयान यक्ष ॥ ॐ हूं हा ज्ञा म महा: ३१
हा ज्ञा: वज्र हा ज्ञा महाबव ४ ॥ हा वज्र थिंन क्व मर्हिं स्व. हाहा
कान गुह्य न्हीं ही ही काल सानेया नाउम्बान क्व थ्व नि मर्हिं.

नन्दि निं कं हयीकल ख्वा नक्व. पथिंन क्व ऊ उ गुमध्द स्व नन्दया उउ
क कर्हं हृ याउम्बा नक्व स्वन ॥ ६ ॥ वज्रसत्वा महासत्व. वज्रया ज्ञाम
हा हूं स्वः ॥ वज्रचन्द्र महामाधा. वज्र हूं काव हूं फ्रं हि ॥ हनेंग थिंन क्व में
ह श्री नाखल सा मे ह श्री याग. नू पवज्र या मर्हिं वज्रसत्वं महा उविल
यानाउ. ध्व वज्र या कूं ध्वन. सहज्ञानन्द ह्मन या नेसह स्व. वज्र यासि ह ज्ञ

ि हृदयीनक. पनमस्त्रेष हूँ कालवायपुविजाकुलमकुनजाकहलवा।
३ । वज्रवालापूषवर्वा. वज्रखड्गो निष्कन्तनं ४ । विश्ववज्रधवावज्रि. त्र
कवज्रिनधीरुहं ४ । ॥ थिं नमः वज्रवनलपाउश्वानमः. वज्रवानध्यायु
जनिवलनाकमूने. वज्रजानाउश्वानमः. थिंश्व वज्र वनलपाउश्वान
मः. खुपुलिवज्रनेमसमस्तनाकपाम्कुजवलपाउश्वानमः थिंनमः वज्रथ ३८

नलेहृदय । ४ । वज्रज्वालाकरालोज्ज्वा. वज्रज्वालाभिरानहं ४ । वज्रोषम
महावश. गगनोवज्रनोत्थनं ४ । ॥ थिं नमः सर्वलिवज्रभानसावज्रवाह
हनपुरुक्रुध्वलम्बिवाजा नसवज्र समूर्वीस्यान्मू भ.भाकहि हलसिज्व
पुत्राथ थिंनमः उरुमगुमे । ५ । वज्रज्वालामाकुलनत्. वज्रना
मेकविग्रहं ४ । वज्रकोटिनस्वालक्ता. वज्रमानयानक्वि । ॥ थिंनमः प्रवज्र

नेउत्पकिहउाग्सविलनाथवसा॰ध्वयागुमर्हिनवज्रथिकः॰ध्वयाचि
मिसध्वालने॰कोटिश्प्रमाननेवज्रउाउाध्येविघ्नयारूपेवज्रयानायक
उाथेगुकउाउाकमहावलउाकघ्नविलघ्न॥ ८ ॥ वज्रमानायनमश्रीमा ३९
न्॰वज्रहनवमहषिकमथ॥हाहाहा॥निर्घोषा॰वज्रधाथस्वरूपनम॥ हने
गथिनगुमर्हि॰ध्वसपावयाथलसा॰ध्वलबननकिसाहलसानवज्रयागु

मालान॰वज्रकवलेथयवज्रधेहकाकियाउाध्वहायालउाविघ्नक
घ्न॰होहकालसेवलेथवह॥ [illegible] श्रीस्वगुनखेहकायाल
उाविघ्नकघ्न॥ ९ ॥ सैरुधाथामहानादम्भुनाकथालथामहान॥अक
थाथउपर्यका॰धाथाधाथवनाम्नम॥ हने सैरुधाथमहानादवय
हलमगुवन्वनहडतुयथाधगुमनाहलगु॰ध्वसधाथलयागुथ॥

द्ध्वग्रेलोक्ष्नकायद्रुःहनैक्राकासपर्य्यनैःएनगुमकृःपर्थिनगुका
द्दनैसैहृकेहृडाम्प॥ १० ॥ आदर्शज्ञाननामध्यपाधनमाईदखा४॥
तिक्रादर्शनज्ञानयागुमध्यात्रिपद्मक॥ ॐ ॥ ॥ केथनाहृनै ४०
यात्यहृनकामिनधैक्रव४॥ शुन्यकावादिह्वघहा॰ताम्हीमादानगार्ईदा
४॥ एनवौत्रगार्थिनमप्रबुख्वध्वसपालबावसाःकेथागामयाज्ञाननैः

समस्कैसैगार्याबायष्वप्रालिदको॰क्रसैख्वयाकसैकाख्वयानाओक्राख्व
नैसौकौसौकमक्रिडा॰शुन्यकावादनयृःमहागाम्कोल॰श्वाहागाहालमद्दख
क्रक्रतिहृओधनमपबुषध्वम॥ १ ॥ धर्म्मधैर्य्यामहागन्धा॰धर्म्मगन्द्रि
महावघा४ ॥ अप्रतिष्ठितनिर्व्वाहा॰दगादिगूधर्म्मइन्दुहि४॥ हनैगार्थिन
म्बध्वम्ममेहृग्रीनाबालमाख्वमाकाव्तृःसमसत्लाकयाकःमीगालहृओ

ष्क पथिं नम्ह धर्म्म मन्दिलस य. गी सिद्धायाओ. वाजन पाक ग्वसाद नेथ्व द्व
सद्दि गहल्वनप र्य्याफ. वसम्वप्ह्म ह मेद्व वलाकयाम्हे माङ्गा. ह्नकाक्ष. पथि
नम्ह नेथ्व लाकयाफउ पेदमो वियाओ विस्फाक ह्न थ्व सयाल ॥ २ ४१
वा ज्ञत्व पाव पवाद्न गुह्य. नानावू पीमनाम्ह्य। सर्व्व त्व पाव नास श्रे: ब्रा ग
खपुफिविन्वस्थक वा। क्ष पथिं नम्ह मेहश्री खालसावू पमहूप्ने ज्ञावाले

मेहुप्रसमस. थील पर्गे गङ्गा दिने सर्व्व सत्व प्रालिरानप निथ्व वूपद्उ पि
ती. थ्व खर्म्म थलनपू. सवात सेसानया. नूपाएथ्व क पान ज्ञाएथ्व वान म्ह
। द्व वा ज्ञपुत्रव ज्ञाम हेसा ज्ञा श्रे थाकुक महस्वदथ सम्भूर्च्छ पार्य्य मार्गे नेह्म
धर्म्मकहुमहादयथ। गथिं नम्ह मेहश्रीनायक थासुसा. वोहाकीन ज्ञा
नानेज्ञाह्मकोडाप्न. वह्न ज्ञा दिने थ्व फिहल्वनया कुम्हल हपाओ. उ

ह्न म गु धर्म्म या मार्ग ध्व ध्व कः ह्म स्वं वा नस श्री मे हः श्री ह्लः॥ ४ ॥
त्रै लोके क क्रमा ला गस्थ विनं वङ्ग प्रज्ञा पनि ४॥ ध्वा ग्रं मलङ्क मध्व ब
क्रां क त्रैलोक स न्द न ४ २॥ ग थिं न स्व ध्व मे हः श्री या गुस्व ल पना थन ४२
ल ध्व स र्ग न मः ख्य या का व सें वा म स्व. ध्व स या व हनें ध्व स पा ल गा थिं न
ख. वा ल ला स या मी नी. ख्य थं वां ल हः उ स्क स या लि नी. ख स क हः पा ओ क

म स. यी स्वा नि हः या आ ध ल न प ख्. गा थिं न स्व प व मे स्व ल ख्य ल ला स
या नि का य हः न नें मे हः क नें सें पुष्प हः उ स्व ध्व त्रैलोके स ध्व सें सा ल स
ओं हि न म का न कै विघ्न का ख्र थिं न ध्व सें व न ध्व भे व ध्व सें मे ड॥
उ॥ लोक ह्म न गु णा चार्य्या लोका न्वा र्थ्या वि भा व द ४॥ ना थ स्त्रा णो त्रै
लोका प. भ व द्दी ना यि व्र ह्न ल न ४॥ ला व ङ्ग पा नि स ध स ध्व लो क सें. मव

क्ष सू म इ॰ ह्य लि ह्म स म स्त ल्या क्व या॰ गु न या ओ वार्थे॰ स म स्त या गु न ल्हे ह्य या
ओ ध्व ग्रे ला क या ध्या कूल ह्य या ओ॰ स्व न स्त या न क ल्या ल या क ग्ग ध्व स या ल न
क॰ स्व ब ल या क्व क्व या क भा क्व प्रा पि॰ ह्य यु ओ॥ ९ ॥ गवानाहागासे हाग॰ सर्वेह्य ४३
ह्यान सागान ४॥ ग्र॰ विध्यान्दकासे ह ह्ले ह्य व पेक ल दाव ५॥ ह्य ना गा थि न ग्न
मेइ श्री चक्र थाल स्ना गा गा न्ना हा गा भय ज्नू का स्त स ध्या न नः पे वि ह्य क्व क्व॰ स

स्त ना वि ना क या ना ओ बू इ या ह्यान या गु स्ना या ल ह्य य स म्न् ५ ले॰ ग्र ह्यान
ह्या ना ने॰ क्व ओ या भू गा ल से मा न क्व च ध्व से सा न या थे क ल ध्व र व गु ध्या
क स्न गा भि न स ध्व पे के ओ॰ न भा ल स्ना ल लि के ये क ला ने ह्य ना ध्रु ध्व॥
५ ॥ स मि का ला या से क्र गा॰ से सा त्रा धृ व पा त्र या ४॥ ह्या ना हि ध्य का स क्व
दा॰ स म्य क्र वृ छ ह र व ६ ४॥ ५ ॥ थि न ह्म मे इ श्री थाल॰ स्ना॰ स्म स्त इ ष व मा

ह स्व षयाना ॐ भावकृ ष्म थ सें सात्र पाॐ ल्गा ग याना मा ह म स्रा व कृ थे ध
सपा न ह्लानि उत्प ह्लि ह ॐ ष्म मक्ते न प्र या ॐ आ ह न नलीं कि स्य विश्वा क म
थ्व सप व ॥ ८ ॥ ष्ठि इ श्व ब इ ३ ग स म ग ये. सा न्के न क ष्ठि म कि ग ३ ॥ स ४८
र्वव लन विनि मू क ल्गा का ग स म नौ ता म ३ ॥ ग थिन कै मी इ श्री ध क म
ल सा स्त्र का न न क थाय. ष्ठि मू र्हि. काय वा कृ विल थ्व सता न स य र्द्व इ

या ॐ उत्प ह्लि इ ॐ गु पाय नि म न याना ॐ भान्व कृ म न्ते ल्क स इ थ
व थ्व क गु सौन्व कृ क म्र ह्ला न द का कृ न याना ॐ मान्व कृ म पा य ना या
कृ थ्व सं स्रा न स कू नै ह छ म द ष्टक थै इस म द य र्दु सा स्त्र कू प्र ने कू ल्गा
सा ष्ठ इ लै ॥ ९ ॥ सर्व श्र ग मन ला नौ क. प्र ज्ञा न द्व ग कि ग क ३ ॥ सर्व स
त्व म ह ल्का य म. गु ह्य र्थ ष व र ण व न ३ ॥ ग थिन स ष्ठ मी इ श्री मा न सा

नमस्कृ पाय नी मों कप स्यं महापुठरव हृ न्ह न याक काउंगा पिं नमस्क अवक

प्रसूक्रम हायानध्वक महायान सत्त्व वन पकृष्म विसंविद्याक क

नमस्कलसकृयाकउ हृष्ण पुरुउ हृष्ण पुरक्ष ध्वसयाव नमस्कउनया ४१

नोनमनिकम स्वसपा लं ।। १० ।। सर्वोपधिविनिर्मुक्तः व्योमवत्सु

स्थितः ।। महाचिन्तामणिध्वजः सर्वरत्नोत्तमो विभुः ।। गोथिन स्रमें

वाथलसःध्वसीमसहया हृहि कृकार्थ्य याप गु.माया काहिन कालकाउ

विद्याक पसदालहें काहें कृकाम लपनें विष्काध हस्नें विकास

नीकव लवलवपूसकृसानल्पासि नेउ हृमण्वत्वे व्यापिकड

लक्षमतेश्री ।। ११ ।। महाकल्पतरुः स्फीतो महाभद्रघटोत्त

मः ।। सर्वसत्त्वार्थकृत्कर्त्ता हितैषी सत्त्ववत्सलः ।। गोथिं सकृमें

श्रीनाथकश्चलासमहाथलैनाथकश्चमहाक्षडामागुकलयकक्षस्ति
मानवूपक्षथ्थश्मानाडविक्षाथक्ष·बंखनीक्षानाकयाउघटथे
उपमाहहुव·ध्वसमस्थातिउस्यनियाकक्षध्वसमसप्रातीय
गसहासवकालसैकल्यानयाकक्ष·सुखयाकक्षध्वकिडिओगेदुया
कश्रीकिवूनावाडक्षध्वसपाल॥ १२ ॥गुलागुहहकालहल ४६

मयहसनयविहु४॥सरखन्द्रियहाव्यलैह·विमकिग्रयका
विदह४॥हबैगथिनक्षमैहश्रीगाथवाथवसाहनैमहीनवालसिड
क्षहवैसहयामन्ठुश्वयामल्वसिउाक्ष·खलावसिडासमयैगुहपथिवि
श्चानूय॥ममसपाप्रातवायुयाग्रुख॥दसवंठन्द्रिय·थाकानवासिडाश्र
ममस्कमहिमानिवियहखस्थसपाव॥ दरु॥गुनीगुमहवर्म्महप्र

शुभः सङ्कल्पोदयः ॥ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यः कीर्तिर्लक्ष्मीर्यशः शुभः ॥ हनैत्तम
स्फुतनमि॰ आः समस्त धर्मनिसे आः पूर्वीवग्रैरालन हा लक्षः संमन्त्रमू
कि म रविमगलखलपम हनैमहानक्षिखकपम शुकल्याणा आः
स्वाहा पान ॥ १४ ॥ महोत्सवो महाश्वासो महानन्दो महारतिः ॥ सत्कू
कारः सत्कृतिर्भूतिः प्रमोदः श्रीर्यशस्पतिः ॥ हनैमहाकरुणाघनः महाउत्सा

४१

हसपन्नहृयः ॐ महाज्ञानन्द्र आः महासैन्यैनैविघ्नकक्रज्ञानन्द्र
ॐ महाआनन्दःॐ स्वाहा पान ॥ १४ ॥ वरदःश्रेष्ठो वरेण्यः शरण्यः
वरेण्यश्शरण्यो हृमरः ॥ महाभयारिपुबलानि शोषक यनाशनः ॥ हनै
गाथिन सूर्ये ह श्री न भक्तमाल सा समस्त यो क बल हान विघ्न महा
विद्या कुल नया या ॐ आधर्म समस्त यो ससवनरा निस्तन समस्त मकु

मास्वकाउवान ङ्ग. समस्तयामनन उ ानउ ाङ्गिउ ाङ्ग ॥ १३ ॥ शिखिशिष
घुउ किला. उटिमोष्णु किलोह्निमी ॥ पंचाननपंचशीष. पंच्चवील्क्वानाद्व ४८
त्र४॥ गषिंन ङ्गष्वमे हृश्रीयाकसननउनाउखलयानाउ. उनादंयाउस
त्वाषउानया. किविन्हिने पुयागथि ङ्ग. हृने द्दापान ख्वावदयाउन्वान ङ्ग.
दागुविवक्तु ख्मयद्दा चाक ङ्ग क्न. कुपउान्हु ल्याउ ङ्गास्तुउ ाउं. ध्वकस्वलव

नवि ङ्गाक ङ्ग श्रीमहृश्री ॥ १८ ॥ महावुर्ह्लुयनामोडि. वृ ङ्गवा लिव्र
कान्ह्स४ ॥ महाकपाकपा तिष्ठं न्हाकका लोमेह्लुना १ ग्रधी ॥ हिवङपा
निगापिंत ङ्ग. ष्वनागी ष्कल नाव या ङ्गती. महामहानउ ाव म्मि स्वचन
लय ङ्ग. सहृश्रीने. भस्वनासं पेंनषयाए. वृ ङ्गस्व र्थीयानाउ ाय र्मिव
र्थीयाक ङ्ग. कुन्तिय कि नयल पंवि ङ्गाक स्ती हृल. नउ ारु वनगुस्मानय

साहायह्नेजाकियाघर्म्मचर्द्धमलपूक्षःएभक्रमछ्याया वाधिसत्वप
डाकथ्वसेपान॥ १८ ॥ बुद्धःदि[illegible]क्षःयोवुद्धावुद्धःनिर्वाणमाप्नुया
तु मुक्तिः मार्ज्ञाविमार्ज्ञीएभ· विमुक्तिम्हाकवाधिव४॥ गर्थिन [illegible] ४९
[illegible]बनसाव्रम ह्नानसओव[illegible]माक्षनयावुपक्षःधवलपाउब्रीम्ह न
[illegible]हृयाओहनेशुन्यकाहृयानिर्वानपदनाकम्हःमाङुमानिवलदाः

नाहृयाओःसम्मकुथ्वसेसानया वचनमाक्निनयानाओ विघ्नकम्हःज
क्रिसानकनूपका मनस्मीललवने[illegible]नसेगलयाकम्हःश्रीमेहःश्रीः
हृल॥ १९ ॥ निर्द्वाणनिर्हको सांकिःश्रयानिर्व्वाणगमनःक४॥ सुखवु
४स्वानक्षःत्रिम्हःवेनाथमपथीक्रय॥ [illegible]निघ्रमेहःश्रीक्षमनसानिः
र्वानसमाखियाकक्रमहाभना[illegible]वुप[illegible]स्वानम्हमेगलपदार्थ

इहस्वमुस्वनालनाऊ थेगा गिथुलवपाऊम्वा तम्ह कपस्थाद्वर्ह्धवलवपाऊ
गुहास विष्वाक म्हश्रीभ्रम म्हिं मेहश्री ॥ २० ॥ अजपाद्भूवमाद्यकादि
सोकाम्भा निर्लिजन४ निष्कल सर्व्वगम्यापि सूक्ष्मबीजमनाश्रव ॥ हनैा ३०
थिंनम्ह मेहश्री वास्क थलसासनाने ऊयवपथप भिन्न थ ध्याय मदम्ह
महाद्याकूलस्विड थथे हहेस्रथ हहथकै ड पमाने लाय सफिंजाद्ध व

कू पानासाय मफिंऊम्ह कोकान मदुम्ह मुर्हि नमदुम्ह साक्राकू निर्लि
ऊनम्ह सैम मस्कू क्रिडम ऊन्कू याक थाधू नपाऊ म्ह ग्रूगुवेपयानाऊथ्व
सैसाल दयकें याकें न्कूपलबूपहू याऊ विश्वाकम्ह स्वसपाने ॥ २१ ॥ ब
अबङ्गा विम्ब्का वान्कदाषानिरामय ॥ सप्रबुद्धो विष्वात्मा सर्वदृश्च स
र्वविद्युव४ ॥ हनैा थिंनम्ह मेहश्री वक थलसा वढा गुनमदु निर्म्मल

ह्ङ.पापन ल्हिर्ल्हुमह्ङ.ह्नेगाथिं गुञ्ज नगादाङवनेकाव्वकाङ्ग्वानम्ह
थाल सा.थ्यापिनेम हूम्ब ल्विनां मनिवन्कं विङ्कह याङाङ्कनाखव ङ्गास्माष्व
य.ह्न कर्यमहूम्ब थ.थ्या ह्न कन विथ्यावर्ल्हु मानम मिङाम्ब थ्व सपाले ॥ ७१
२२ ॥ विम्ह्वनवर्म्म्कना मी का.ह्मन म दयवू पथूकु ॥ निर्विकल्पानिलाः
ल्यानाः स्प्र्ब सेवृङ्कार्य्यक्रूहूर्यं नाथिनम्ह ङप्रमानङ्ह नना थाल साश्नो व

नाला ञ्ह्मनवर्म्म काव्वकाङ.स्हुङ्वधर्म्म धनलपाङ्ग्वानम्ह.निर्विकल
पनिमाकानाक्षय.मानविल्ह याविकल्प काव्वनाङ्ग्वानम्ह वृङ्ग यानु
कार्य्यस.वृङ्गया प्रिकायक्षय.क्लिमस्वकोल लाव पाक म्ह ॥ २३ ॥ अ
नादीनीयनावृङ्ग ञ्चादिवृङ्ग निर्लैवयप४ ॥ स्वमेकन्व ह्रूवमयो.ह्नन
मूर्ल्हिस्कथानान४ ॥ ह्नवक्तयाक्षि थ्वगाथिं नम्ह मे ह श्रीनो थाल साञ्जना

द्वि वढ्ड या वा ध्विसत्व याह्मनक नाउ ज्ञ ना द्विन ध्रुड्ड याउ ह्ल मगुम्भाड
ह्निन पापन लि प्रुम दृ यकै. ना पिंज ल्ह्मान ह्र द्विनै स्व याउ न्वो ननायक
न्निर्म्म ल गुन ह्नु श्वाय मिवाक नाउ. ह्मान म ह्लिं स्व न्रु यगु सनी ल मिर्वाव
न्वल पाउ न्वानं॥ २८॥ वागीश्वनोम हावाधी. वाद्विया ह्रवाद्वि पंगव
वदनौ ववावलिक्ष. वाद्विर्सि हापवाङिनश्व॥ना पिंन ध्रे थ्य वागीश्व ३२

नश्व वस्ता. सम स्क्व वश्वनया. सम्भु या ह्वा मि ह्र स्माउ. सम स्कु सृ यक्षका
ह्नि द्वलाकै या न ह्री न या य ह्लुउा क्व महा सामं र्ष्व ह्लुसायगु र्द्विस व
श्वन स ऊ उा ह्रैं ह्ल याउ न्वान श्व ल्ल ति वल लवा वश्व न्हु नै गा म ह्नापविनड
ह्लम श्र ह्नु स्व पव ह्व. ह्ल ति वा नवाक र्मि ह हावा ह्नुग द्दनै ध्वऊं ह्रुगानप
त्नि मकार्ते हानाउा. विस्पउा नरथे. सम स्लं गा द्र ऊ यन पाउा विस्ना क स्थ

सयान॥ २७॥ सम्मक्‌दर्शिप्राप्तमाय्‌: स्कन्ध मालीसुदर्शनं४॥श्रीव
ल४सप्रकाशदीपि॥ लालासन्‌कलस्यूफिवा॥ थिंनेके मेहश्रीवाधक
बालसासम्मरू प्राप्तिगनयाकउ हिंस्ख्वनाउं महाकङउंकेङङमस ७७
यनापीहिंदुश्रीनकूयाउंरिवनं नेसव्लाप्रमानहूयाउं श्रीलक्ष्मीप्रका
सहङउं थेमहाफङउंम्बोहूयाउं विघ्न कक॥ २८॥ महाहींपस्व

४स्त्रस्‌:गल्यहर्के निवृत्व४॥ ज्ञणबके ख्वप्रमन्‌: श्रीमवाधिम
हाप्रिपूंक४॥ लेवुङपाशिध्वनाथिंनेक मेहश्रीवकबालसासमसेप
मेसानयाम्हहादेपनाथींदुध्वसंस्वानयावैक्षाकयनेकउ थेमवानेपू
किसयाकाकयाउंन्वानकयाकः मोंव नाथेङ्‌बक्वदकामान्वकूछग
थिंनेक मेहश्रीनाबालसाः पापव्याधिमहानाग प्रहींनिनक्वनाघ

सैंसालया दुह्रस्व हानाउा ग्रमियावागमावक क्ष ञा सल्लसिमाथ्यैं ध्वक
श्रीमैह श्री ह्ल॥ २० ॥ प्रैलक्ष मिलकैं ञा क्ता श्रीमानू क्षद्रम हुल ८॥
दधादिग्याम पर्य्यनो. धर्म्म ध्वेक्ष महाक्रुय ४॥ हनै प्रैलाक्ष सत्स्त्र हुति
थलन कीनाक याथ्यैन क्रप्र मलुल्लसविक्ष्माक क्ष. दधादिगस पर्य्यन्क.
नाकोस लैथ ध्व सैस्व थ्यैन्वाञाउासौवि क्ष्माक क्षश्रीमैह श्री ह्वैह्ल॥ ज४

२८ ॥ ञाङ्क ह्रैक विपर्य्योमेह्रिक व्रृगमसलुल ४॥ पद्मनर्हेम्वव ४
श्रीमानू. वत्वक्ष ञाम हाविह्र ४॥ हनै ध्वक्ष मैह श्री ह्लसानै ध्वञा
नसैसाल सक्ष ग्र रुक्ष याथ्यैस्त्र क्षमे ह्रिकव्रृगाया थास. श्री वैह्लला
वह थकै पद्मलत्थ स्वनसा नूघ थलन पाउाविक्ष्मकक्षनै ववनैथ
विक्याना थ्यै ध्वसैसान ससैह क्.याक क्ष थसपाल॥ २९ ॥

सर्व्वबुद्धमहायाज्ञा॰सर्व्वबुद्धात्महावज्रकू॥सर्व्वबुद्धमहायाग॰सर्व्वबु
द्धकसासन४॥ग थिंनक्ष मैहश्री धंक धलसामनक्ष बुद्धयाक्र लाव
हा व क्ष मल बुद्धयासासनल॰महायागन्ध र्यी धं वलपाउविक्षकक्ष
धंसपाल हल॥ ३० ॥वज्रनलाहिथक४श्री॰सर्व्वनलाथिपन्थन४ ३७
॥सर्व्वलोकन्थन४थकि॰सर्व्वबुद्धसनस्वकि॥हनेगथिंनक्षमैहश्री

नाथक मलसाश्रीवज्रसत्वयागुरुहिथकनाकक्ष॥हनेगथिंनक्ष
मैहश्री॰श्रीश्रयकुनिस्वहावनेसिहकहउाक्ष॰हनेवज्रधर्म्मसंघय
गुश्रीक्रिनल द्वनायाकूखनक्ष॰हनेगथिंनक्षधनसादालकिक्ष
लाकन्थनयाेन्ज थिपनिक्ष कौनग वज्रवलयाेज्ञ थिपकिक्ष धंसपा
ल॥ ३१ ॥सर्व्वबुद्धमहान्विह॰सर्व्वबुद्धमनागकि॥सर्व्वबुद्धमह

काय: सर्व्व वज्र सत्व स्वकि ॥ गथिं तक्क ध्यमं डु श्रीत्रा अवसा सम ल्हेव
ह्नयान्ती ह्लु समसल वज्रयामन: समसल वज्रयासनील हरुआ क्रे उ ल्हस्व
विह्रवान्ना स्मरथडा पुनपाल बन्वनसविक्क: क्कस्थ ध्वक्क ॥ ३२ ॥ ७६
वज्रसूर्य्य महाला क्का: वज्रेन्दु विमल प्रहव ॥ विना मदिं महानाल्य
विश्वव ह र्मं हालप्रहव ॥ हनं गथिं तक्क मं डु श्री अवहा ध्वसपाल

या: वज्र ह्युडा: ना थिं वगु अलसा श्री सूर्य्यों ध्यं: डा ह्ल लमानली प्रका
सयानाडा विक्का: कक्क: हनं ग थिं न क्क ध्वसपाव अलि सा: वज्र हानानं
निर्म्मल गु श्री लन्दुमा: विनाग मदि अयनाना प्रकाल याव ह्र्य हृ मलव
पाडा विक्का: कक्क: हनं ध्वसपाव हल ॥ ३३ ॥ सं वज्राव वज्र पर्य्य
का: वज्र इसे गो ॥ शिवर्म्म प्रभू ॥ वज्र पमाह्र वड श्री लान: सर्व्व हस्तनं

कोशमूर्त्ते ॥ हावज्रपाणिताथिं नमः स हेः श्री चक्रज्वाल मा। सर्वकास
नक्षुध्यल वज्रासनः ध्व सपात्रनं वज्रया गुलसू ज्ञास्य कवोधर्मन्वल
त्रपाउवि स्फुकक्रः हनं पद्मयाक्र ग यनं स्याह्रिः उं भ्रंः हनं क्राह्ल ७ ग
कस्वलाचनाकहनं ध्वसथाल यानाम सं वि कि विध्याक्ष। ताथिं नक्ष्वल
सासमसवज्रयासास्तु तस्य नमस्तु पूजाक्ष ॥ ३४ ॥ विश्वमाया धनामका

वज्रविद्याधर महान् ॥ वज्रदीक्षु महावज्रा विशुद्ध ध्यान महा कवं
॥ ताथिं नक्ष पवसव वेम हेः श्री लंह त्र विश्वसं साकया। मायाध्वल
याउविस्फुक क्ष लामिलं हल हनं ताथिं क्ष च वि उ क्ष। भन्लावज्र
याविद्यासास्तु धल सधैंवानक्ष हनं वज्रउ क्रम महावज्र ध्याय क्ष
क स्वक्रक्षोकिकि क्रयाद उउागु हिंगुम्व वज्रहा त्वज्र ध लव्य पाउवि

म्याकक्म पद्मार्थसमस्या मूल ह्मनविशुद्धयाकलस्वन्मुफ्क
लनेसीपूर्ण्हुड्डक्म ॥ २५ ॥ द्रुष्टवद्भुदमहायानवज्रधर्म्मसह
यूधव ॥ जिनजिनूवज्रगर्भकोर्य्या. वज्रवद्धियथार्थविहू ॥ हनेगर्थि
नक्ष्मीह्रुश्रीनाबानस्नानव्ययागहूश्रवमान्वितयाकम्प्रहनेवज्रक्षिप
कनें. महायानक्रीयायाक्ष्मनलह्ययाआनव्यानकयामुरवमहागमि २६

बगुनूवद्धिअक. कथकाश्रयसुनापाः ह्मनव्याकनेस्तिस्यविक्षुक ः
क्ष्मछलपानव ॥ २३ ॥ सर्वपानविमितापूर्वी. सर्वहूमीविरूयमह
विशुद्धधर्म्मनेनात्मा. सम्यग्गूहानन्दइत्यकव ॥ गर्थिनक्ष्मनेहश्री
श्वालसाः वज्रहमिप्रमस्वनी. वज्रहमिनेधवहवनलपर्भानसुअ
नागमह्यानसाक्षूक्ष्मपलमह्यानदकींवाकपत्रीस्वमन्वन्द्रमाया

कीवनर्प्यैनीर्म्मलहृयाङाप्रकासयाकम्हस्वैश्रीसीहृश्रीहृव ॥ ३८
॥ मायीजालामहायाग. सर्व्वकर्म्माधिपश्चयव४ ॥ अमोहवज्रपर्य्य
का. निश्चप्रह्लनकाय हे हूं ॥ हवज्रपानिलाथिंन म्हसे हृश्रीयकथाव
सा. ध्वमायीजालन्मादिनें समस्कथाम्हयाम्हधिप वि. ज. ध्वसपानहृ
नीगाथिंन म्ह थालसो हृस्वनथ्रायन्म लैंकाव निसानकियाङा. सीहूनं ३९

सैंयवलयाऊम्वानम्ह. वज्रासनयानाऊविम्हाकम्हध्वसपाव ॥ ३८ वा
समन्तकहृद्रसमन्ति. क्षितिगर्ब्भेऊगायनि. सर्व्ववज्रमहाकर्म्मो. विस्व
निर्म्मानवज्रस्वकू ॥ नथिंनम्हथ्वसीहृश्रीमाश्चकथालेसा. समस्कया
सैंकल्यानयाकम्हउहूमयुलिहूम. हनैंप्रिथिवीम्हादिपनैध्वजाथा
सैसावैयलवपूम्हथसमस्तैंक्षितिनम्हायकथानगयाकऊयवपद्युथ

नसच्वङ्गसछुलसथ्पतुसीसावदयकेयाकपकाध्वन्वङ्गवबनपाउवि
ध्याकङ्गकुल॥ ७२ ॥ सर्वलोकवसहायाभेध. सर्वलोकवस्वलोवह्नक॥ अ
नुत्पादधर्म्मोविस्वार्थ. सर्वलोके॥ लोकवभूक॥ हनगाथिनङ्गथमेह
श्रीनाथकङ्गलसाछुम्वनसमलस्यनेध्यानयोनाउम्थानथउछुस्वलव
छुलङ्गपाउम्वोनङ्गछुकिस्वलापमानह्नयाउम्थानङ्ग. हनेङ्गनगाधर्म्मे ६१

यापुस्वलावङ्ग. ध्वसीसावयापुहुछुङ्गधसपाल॥ ८० ॥ ब्रवकङ्कनम
हाप्राह्न. सर्वधर्म्मोवबोधक॥ सर्वधर्म्माहि४समयाध्रुहानाह्नमति
वग्रधी॥ गाथिनङ्गमह्रश्रीध्यानसाप्रकाकुलनविङ्गाफह्नउपीलनग
धर्म्मेधालनायछुडः ङ्गनगाधर्म्मयाकानह्नकुप्रानोस्याकः. ववविउम्ह
त्वोहलध्वसयाल॥ ८१ ॥ किमिनह्नपसन्त्रामा. सम्यक्संबुद्धबोधि

रक्ष॥ पूर्णदृष्ट ४ सर्वबुद्धज्ञानी· ह्लनाञ्चि दृसप्रह्लाम्थव ४॥ हनं गर्थिनस
थ्वसमे हृश्रीयक म्हलसाध्वसर्वसत्वप्रा ग्नियाक· दकायाक दयाम्ना·
याप्रुसेन हृयाउविघ्नकेक्षपयेमार्थ ह्लाननाक क्ष·समकवध्वयाहुडी ८१
हुपूर्णपक्षयानाडा· ह्लानयाप्रुक्रनेदिनवाग्निमदयकज्ञा ज्ञलमान
नैवानक्षथ्विनक्षमेहृश्री॥ ४२॥ प्रुवव्यम॥ ह्लनगथा· ध्वाबत्वा

त्रियाकृत॥ पूर्णप्रुश्चक्रनायाह्लनयाप्रुस्व·पियनियगुस्मकथ्व
हलं॥ ॐ ॥ ॥ थ्वह्लार्थनायके पवन ४ सर्वोपायविश्वाव
क ४॥ सर्वसत्वाहृमानाथ· सर्वसत्वप्रभावके ४॥ पूनर्मीलहनं
गर्थिनस्थवमेहृश्रीनायक म्हलसाःहीक पायगुकार्यस· सावक्ष
दयाम्वःकाउहलमउपायविघ्याउसमक्षप्रानियाकदाथमहिन

गुपवमार्थ द्का॰ निर्म्मनयानाउम्बानक्क॰ ध्वसपालसी नमस्त॰ सत्वप्रानि
याकद्काहयस्त्र॰ न कृष्णकुलपान ॥ १ ॥ ङ्क॰ थनं प्रमम॰ नेक॰ म्हस्त
नविपूद्यंहा ४ ॥ धी॰ मैमनवन ४ श्रीमान॰ वीलवीहस्तनपम्हकुं ॥ ६२
हलंपापद्कालवनयानाउाथ्वसंसानयागुदु ४ थवहानोनं सेहालम्यांक
क्षसलमहापमाकृर्मिम्हकिर्दं ज्ञिकम्ह ॥ हनंगाथिंनम्ह थाअसं॰ म्हस्त

नम्हकृयाम्हहं कानमान्नकृष्ण॰ नुक्षियाश्रीनलावविउाम्हश्रीगमनबल
वपंश्रीसलावकहयाउाविर्थ्यवंम्ह कृथाउा॰ नर्थंकनवनपवलवपा
उाविस्थाकंक्षध्वसपान ॥ २ ॥ नाहदन्दसनाकृप॰ थद्निथ्यपथंई
न ४ ॥ श्रीमद् द्रसनागम॰ नागनाहागनहिंछनथ ॥ गथिंनम्हसंहुश्री
थकथालसाध्वसपानयालपथालसा॰ सनम्हिंकानाहाकथ्वउाम्हना

क्वा प्र काल नी ऽ ष्ट्व र्ग ह्रू याउा म्रू मिसा काउा क्ष यानाउा न्ता का स्त्वी
प त्रि पूर्ग्रयानाउा न्त्र थि यानाउा वि ष्क्ष कष श्री मई थ्री ॥ २ ॥:
प्र कपा द्क न बा क्रा क. ले हि मद्द्य ल क व क्षि कष ॥ व्रृं क्ष द्यु मिम्ब ला
क्रा न्ता . या दा उ ष्ट न र्ष ब क्षि क ष्ठ ॥ ह व ऊ पा मि उ ह क . ना थि न क्ष मैं ह
श्री थ्व क श्र ल सा . ध्व स पा व या उ छ्रू पा उ मि न . ध्व प थी वि सी . स का है

वा प द्र ब पा उा . क नाउा क ल . स्व प . थि वी स ख्या क वं . नि या उ कु मि न क वा
व्र क्ष या था स . स वे ष्ट्र से थ्य क्ष वा प व्वि नि था न्त्र मिस स्त्वा उा म त्री प थि
न्त्र क्ष मै ह श्री ॥ ६ ॥ व्र का र्थे द्द य व म्मीर्थ . प व सा र्थ वि न श्व व ॥
ना ला वि ह फि न्त्र पा र्थ . श्वि ह वि ह्म ह ल क कि ॥ हनै छु स्र नै छु का व
र्म्म या ती छ्रू श्र ब सा . स्र हिं सा ध या उ व म्म या क गा थि ल उ ना श्र व सा भ

ॐ

थयाउ प्रानस घालकयउ णीव का ॐवान प्रवमार्थविनलनथायन्न
नरू लह्नानस्ववूपेह्याउ ॥ वेनव गानया फुंकुं म्थनसंह्याउान्नएा
या द्व वसनूष्य ॥ सिद्धा श्रादिन ॥ वूपचलन पैवान म्र ॥ चिलसह्नानजा ६३
पनपाउम्वानस्रूथ्वसपान ॥ ३ ॥ श्रूगघसवार्थनकि शुनाकावनि
नग्रवी ॥ हवनायघनिनश्वस्रवकूपमहान्ननि ॥ गधिनसमसह्यी

नायालसासमस्कलावसैनमह्हउाश्रुशुनाकासमाधिसैनसह्उ
श्रथ्वसैसानसस्करामनैवादिनेकावनाउावानस्कस्वगुलि ॥ गु
ह्वनसैधर्मसंसमहावसह्याउाविघ्याकस्रूथ्वसपान ॥ ३ ॥
गुञ्जगुञाह बवन ॥ सनच्छनशसस्यप्रहष ॥ बालार्कसगुलक्षया
धमहाताता नर्वप्रहष ॥ गधिनस्रसैहन्नीवकवानसागुञ्जवपि

कायू.सनन्वन्द्ह क्रुपुलक्षाय.कुडवा मास.कोस वा मास या चन्द्र माथे
लि म्बेव ह्नु झाउनाव.ह लै कृ नाडोक सुर्थे रथे खाउँ क बोसि न सैह्रक
क्याउं छि मा क क्ष थ्क सुथान ॥ ८ ॥ ॐन्दु नो ला गु सैन्वी वा.म हा नोल
क्वा त्र ह्नु ॥ म हा म नि म यु द्व शृ.वृड निर्म्मा ये ह्नु व ६४ ॥ म थिं न क्षू
मी ह श्री रा बल सा ॐन्दु नो ल वल्ल पितयु वकु हा कु गुवकु नि स्वि

६७

क्षाक क्षू ह लै गा थिं न क्षू सै ह श्री रा क्षव सा कृ फि ही व गु ॐन्दु नो वथी
न गु क्त बी ह नै ख ला ना क म्ह ६ थ ल्ये धनल्व पक्षे क्त फि हि न रु गु व ह म
नि मा नि क्या.नि सा क्त नि याउं ध्व नि सा या गु मे ऊ वं न्च नि को.सा पुमा
न्या.ना ऊ.ह ला स दि क्षा क व ॥ ८ ॥ ला क्व क्ष हु गा ना क र्पि.स्वा डि
पा द म हा ऊ म ४ ॥ म हा स्व.नि धन न्त ख्व उ स्म नि स मा चि ना हू ॥

गथिं नक्रमं हश्री बाअलसा थनकन्हिगुश्रा दिपनी थ्वलाकथ्कुतपु
क्षियाकथ्व ह्रूलं हश्रीनं समस्के ह्रूयायाकहस्वसअछिं सिधिवलनंसी
हक्रुयानाउवित्वथ्वलथपूक्ष्र कउ थ्वनगुहानयाकेतथ्वलनपश्च मेश्री ३३
कव्रूनाम्रदिकाउपक्ष्तान्त्रादिपनीपकाहानननं जायनकूतुअश्रनयानु
हस्वा छियानाउविक्षूपकक्ष्रथ्वसपात्र ॥ २ ॥ बाथ्रीगकूस्नमादत्त

यकगुद्यदथि ॥ अहींगमार्गलघथवि त्वम्थ्वसे वज्रमार्गनविकृ ॥ ह
नैराथिंनक्ष्रअलसावाथीगथयागुस्वनस्वःसविलक्ष्रथ्वहानहानन
थ्वखानयावासनो थ्वें श्रो ज्वथगकहाकौगुनयासमुद्र श्रहीं ॥ ज
नयासिस्यपद्मनाथहानयाबस्वउाक्ष ॥ १० ॥ सर्वसत्वमहार्थः
ाभविमिसं रत्नगागत्नपमम्थ ॥ सर्वसत्वामनाशाक सर्वसत्वमनो

ऊं ब ३॥ नापिंनस्यं मेह श्री नाथ कमल साय समस्त प्राज्ञियासे प्रहनेगाथि
स्थनूपह संवसाङ्याय्वने. सरा मडुनि. सँगाङ्आकासलेन्डपमावन
मखैङिडाङ कुयाम्वन सेंड्राकेलपूरुने भेनयाथि स्यगाने सेंपर्कुड
डाङ्प्वसपान्वया॥ सर्वसत्त्वन्द्रियायर्थहू. सर्वसत्त्वमनाह
यड़ा पंचस्कन्धअर्थनलहू. पंचस्कंधविशुद्धस्कं॥ हनेनाथिंनस्यं

मेंह श्री नाथ कमल सा समस्त सत्त्व प्राणि स्थ पञ्चा सखया न विहसे
हुन्वोनाडा. दुफिनाहाङ्नि ब्राधिने पंच इन्द्रिययात लब्ध लादय
य पृथिवि धातु पार्ता. आपधातु मान्सि. वायुधातु कं. निस्यम्ब
आकाशधातु. पस्वादनि ध्वड दुवी सं याङगत लब्ध उरस ध्व
पृथिवि आदिन ढागु विशुद्धि सडाश्री वनल पेस्वानस्यं ध्वस्य॥ १२

॥ सर्व्वनिर्य्याणकानि कृ. सर्व्वनिर्य्याणकानि विद्द ४॥ सर्व्वनिर्य्याह्मा
र्गस्कृ सर्व्वनिर्य्यापदंजाक ४॥ ॥ थिंन स्वधर्मे ह्रु श्रीबोधक छलसा
समस्त निर्य्याण कोक्षाय. श्रावकयान महायान. दसकच्चर्य्याया
ह्लुडा ह्वान क्रन्यमा निर्य्याण यागु ह्वमि अक्र. सर्व्व क्षाय समस्त
उपदगविय स्कृडाक्र ॥ १३ ॥ वादशी गादवडा मा. द्वादमावा ६९

लस्डु ह्मकाचकुमनूनयाकालन् अष्ट ज्ञानावबोधद्मकू॥ ॥ थिंन
स्वर्मे ह्रु श्रीक्षोलसा. पिमनिगुविकंनानं सं पूर्ण ह्रुडाक्व. सर्व्वया
मघुलयागुकजा विशुद्धि हृदयाडाक्र. आनन्दयालडा विक्रक
म्ह्याका ह्मानडाक स्वधर्मे ह्रु श्री ॥ २४ ॥ वादशकालमह्य
र्थ धातु गयाकालकत्व विकू। विंशयाकालसं याचि. विवक्रु ४ सर्व्वक्रिये

नथ॥ ॥ गर्पिंनथ्र मेंइ श्री ताथाव सा जिम तिथ्र सर्य्यया ज्ञाकाव म् हिं इ याउा
थ्रिथ्र कथ सर्य्य दव काया. मिगुकनानं सेइ कु ध्या उ नकु मा या. क स्वस्ति
उाथ्र थ्रथ गप्रकाव यावकुव र्या सस्वनू पकु था उा. गुलाकु सा न्ह त कविघ ३९
वर्द्धमान सिउाथ्र थ्व सपाल॥ ५७ ॥ अम्यायवकु निर्म्माण. कायकोटि
विहावक४॥ सर्व्वकुना हिम्वसमय. सर्व्वविलकुनार्य्यविकू थ॥ गर्पिंनथ्र

श्री थकथल सान्ह सें थ्यादि. सें थ्यायायमजिउाथ्र कारि वृद्धयात्रिर्वान
दउाथ्र थ्व सें साव सथ्व कुनमा द्रवकेंन. कविर्द्दे व लनथेंयाथ्र थ्वस्व
लह्ल॥ ५८ ॥ नानायान. नयाथ्याय. जगदर्थ्यविहावक४॥ यावस्मृ
तयनिर्य्याक थ्रकयानस्वलछि नथ॥ ॥ गर्पिंनथ्र मेंइ श्री थल सा. अन्य
कुस्वकुयाछिवावथानाउा. उयायथ सिउाथ्र थ्वकुनाव सेंसोलयाउ

घाय-चित्हं सथवलपुक्कं श्रावकमनयान. संउान थ्कू ड्ढ. गु विसहंवविं

ठाश्रृ ॥ १७ ॥ श्रीं थ्वाद्दु विशुद्धात्मा. कर्म्म श्राद्दु क्षयंकल४ ॥ श्रो:

षादधिसम्भूत्सौ ठ्र्सौ. याग काङ्का नाति श्रिं न४ ॥ हतंगाथिंनश्रं मेह

श्रीनाथक श्रीलेसाम्न नभग पापद्दुं४ वद्दा । क्विनयाउ पाय क्षा: द्विनेमा

चक्रश्र पापसमङ्ग्यापानउं वनुया. ह्गु कि थ्यान तसं नसदा सर्व्वकाय

५०

सेवान श्रीमेहश्री ॥ १८ ॥ श्रेंगा प्रक्रेगागं श्रम. सूप्रहीन सवास

न४ ॥ पूर्हं पायमहाकनूश्म. क्रमाघङगदर्थक्रेहू ॥ हंसेद्ध्न हगोहूं ग

यासित नडा थेनहं श्रेंगपापं दक्वं मान्वकू श्रसे हे श्री: कडा थ्वदेने श्रू

डाकश्र वकाललना श्रमयानाउं विष्फकर्प्र ह्लानयाउ पाय्र मह्ंड

पाय व्याकू थानाउं श्रवनलपूक्रूङ्गाक सेसाल यानहीकयानाउं वि

ष्ठाकम॥ १९ ॥ सर्व्वसंदेहप्रहीनार्थ। विमुक्त्यर्थनिरावरण्क॥ सर्व्वस
त्वमनाविषय। सर्व्वसत्वमनागति॥ ॥ थ्विंनमःस्वमेइ श्रीवालम्हा। समस्त
तोम। मङुगुङ्ग्लनथ्वसत्वपाउ। विशाकम्ह। ह्मनंसमस्तकोविशाकम। समस्त
त्वाकयाहृदयस्तविशाकम्ह थ्व थ्विंनमःपलमथ्वलंकयागइङ्कायथउंकायु
ङिउाथ्वम्ह॥ २० ॥ सर्व्वसत्वमनाकर्ष। स्फटिकसमकीगति॥ सर्व्वसत्वम

नाह्लादिसर्व्वसत्वमनावकि॥ ॥ थ्विंनमःमेइ श्रीनाथकथालसा समस्तसंसा
यामनस्वातम्ह। समस्तप्राणिपानपनिहृतकहविषयावर्ल्कमालंद्वसावानम्ह
समस्तथ्वसंसानयामस्वचिन्तिकसकउाम्ह। थ्विंनमःमेइ श्री॥ २१ ॥ सिद्धा
क्षविभ्रमापन्न। सर्व्वज्ञानिविवर्जित॥ निसंदिग्धमर्मार्थ। सर्व्वार्थत्रिगुणात्म
कः॥ हृनंसिद्धाकहान्दकदूपम्ह। समस्तथ्वसंसानयाकन्तोनावाथ्विंनम्हो

पवह्याउाह्मवपंह्रुउाङ्क॰कात्नपकंचानञ्जुरवाप्याथसींसीब्वाहावडाञ्छ
नयाक॰हाद्यक्कुसदावकानै॰हावनानैसीह्मकाह्रुडाङ्कडाङ्कपन्नलखवसैमि
ह्रुसमक्कवृङ्घयाह्वहावववलपैंचानङ्कमैह्रुश्री॥ २२ ॥ पंचस्कंधार्थप्रिका
व॰सर्वज्ञनविहाचकथ॥ ब्रकाङ्गनहिसैंवृङ्ग॰सर्ववृङ्गभिहावसूंकुथ॥ हनैनापि ७१
नङ्कमैह्रुश्रीनाथकखनसाछाउुनीह्लन्ननैपूनपह्रुयाउा॰हाङ्कनथयानय

ुहावनैदकावृङ्घयाउुवक्कननैपूनपह्रुयाउाङ्कउुवक्कनैवृङ्घयाउुनीसाव्
पह्रुयाउवङ्घयाह्वहावह्रुयाउाव्रिङ्कककङ्कनैथवृङ्कपनिकिहीनयानोउा
व्रिषाकङ्कमह्रुश्री॥ २३ ॥ अनैताकायकायायेष्यकायकाटिविहावकथ॥
अणषचद्रूपसैदर्शि॰न्वत्वकेउुमहामूनिथ॥ हनैकाटिच्छिभवीलक्षात्मादय
काउानेषचद्रूपसैंदञा॰कंयजन्यावूपदपकाउा॰ब्वत्वथवासन्वीनयुम

शीकनैथ्य थ्वजस्वनावऌस्यवानक्षथ्वक्षमेहस्त्री॥ २४ ॥ समताह्लनाम

थ्यावकुर्विन्मक्ति॥ थ्विसमताह्लानयागुख्वलियपप्रगुरुक्षोक॥ २५ ॥

॥ सर्व्वसैवृक्ववायव्या.वृक्कवाथिवनक्रवथ॥ अनुक्कवासनुयाति ८२

महात्मनुकुलकृयथ॥ हनैगाथिनक्षमैहस्त्रीअलह्लावृक्कयागुह्लानप्रका

सयाकक्ष वृक्षयाञनूनवयागानकुसयदऊञाञ्खलमहूसीलवनूप.ख्व

गुलिकूलयास्वनूपक्षथ्वमैहस्त्री॥ १ ॥ सर्व्वमन्त्रार्थजनकोमहाविन्दू

यक्कवथ॥ पंचाक्कनामहाशुन्या.विन्दूशुन्यापेकक्कवथ॥ हनैक्षाञ्खलविन्दू

माफ्रथ्वलपूक्ष्नमावृक्षायथाय[illegible]नञाञ्खलथ्वशुन्याकाहऊगुख

नूपविन्दूमहूञाञ्खन.थऊक्कवियाक्षथाक्ष्नपंचनथाय॥ २ ॥ सर्व्वाकाव

निलाकाल.थातशाक्षाईविन्दूस्वक्ष॥ अकलकलनाकीकश्वकुर्थश्यानकाति

धृकृ॥ हनेज्ञाःखनमहूःजिमषूउलियावह्नियावह्निपावलज्ञाःखलःविन्दुस्वन
पधेनलयैविद्याकञ्चःथथिंनगुक्लथिंनगुथकैक्षयमजिउव्याकनैयायजिउ
थ्वपावनसःसहज्ञानन्दसहकाह्नःव्याकःयायमजिउ॥ ३ ॥ सर्वक्षनफलः ७६
हिहःसमाधिकुलत्मेहृविकूतसमाधिकायकायाग्गुःसर्वसीहागकायन
गूदःतमस्वक्षानयाकसमस्तैसमाधियानाउथ्वनलपूःतमस्तैनानामहूःखगाह

महागनपूञ्चतमस्वयानाज्ञाहूयाउविद्याकञ्चश्रीमहाश्रीहूव॥ ४ ॥
निर्म्माणकायपकायाग्गुःवृथनिर्म्मातृवैणधृकृ। दशादिग्विश्वनिर्म्मान
यथवज्रादर्थकृतू॥ गथिंनञ्चमैहूःश्रीथवेचलसातिर्म्मसमावद
यकूञ्चःवहूयाज्ञानन्दथस्तुदर्शनविंडाञ्च॥ हनेदशादिग्विसानिर्म
नथ्वयाउदसदिगक्वादिपनेहखनदयकूञ्च थथिंनञ्चथ्वसीलोवर्या

उपकालिस्क हृयाउविस्मृत॥ ७ ॥देवाकिदेवदंथ्यन्दुःस्तूवश्रीघानवाधि
प४॥अस्मेवन्द्रस्त्वग्स्वप्रनथप्रमथ्येश्वव४॥हनेगाथिंनस्मह्रीश्री स्म
वसाचम्मेम्मतुमह्रीश्री थ्वसैंतव हानहासोथ्वन्देव घासांनेदंघ.गुनूप १७
स्पनेगुनसमस्तूदंवयानाञाॐन्मुत्येथ्वसैंसाव याग्वु.समसदानया
जृथिपमिखायदेहृयाम्बविपकिःथ्वम्हदंवयाश्वाकिःसमस्तदंवयागु

व प्रथमगानसैःथ्वसपावःथ्वहिगनयाॐस्वन्ह्वैमह्रीश्रीहृव॥ ६ ॥
उकीर्घहृनवकाम्काबप्रकसास्ताऊगकृगुव४॥प्रज्ञाकदशादिगुलोकःव
र्म्मदानपकिमहानूव॥थ्वगाथिंनस्मह्रीश्री नाथ्वकश्चालसाथ्वसैंसावहा
नाउाद्र्मवनयापानेउानस्मसमस्कऊगकसैंसालंश्चागुवसमस्कथ्वऊगाक
सैंतालयाकरिग्घाथ्वकप्रख्याकयानाउा.थ्वदशादिगलोकःसैंप्रख्याकयाना

अयर्म्हयादानयाकम्मिगृहानीथर्थिनक्षयामहिमाइव ॥ ७ ॥ मैद्रीस

वाहसैनङःकनूयावलवक्लिकय ॥ प्रज्ञाखङ्गधनुर्वांश.श्रीमङ्गलनव

धैंजह ॥ नथिनक्ष्यमैंहश्रीबाधकअलमामैद्रीसनाहसैनथाय ॥

लमलुजंमिहृहाकडास्येमनाजाछप्येकनूनोहाकनानीकनइूउरवजव

जूहजकहानी:धनूकवनाथलनपूक्ष:श्रीमहाकडास्यैःयापमान्वकूकःसी १७

ग्नमसैकाञ्चकैन्वानक्षथार्थिनक्षमैंहश्रीइव ॥ ८ ॥ मावाविमानः

जिर्द्वोवःत्वकुर्मालस्यान्कहाःहू ॥ सर्वमान्वमङंगा.सैंवूक्षालाकना

यक४ ॥ नथिनक्षमैंहश्रीखावसाबूक्षान्थादिनैमाभिननयर्श्रिविधृवृंदृ

महत्वलध्वकंपाक्षत्यकजयालपाउांन्वानक्षमैंहश्री:इनैगथि

नक्षमैहश्रीथकथालनामालयाहथमान्वकूक्षसर्वमालन्वन्द्रस्तुर्य

देवकाधायं.सम्मकमालयाह्ययमाम्व काउाह्ननघलव याउाविह्नव
थमपाव ॥ ९ ॥ वद्देपुक्षहिवायच्छ.माननीयम्वनिस्रलउाञ्
वनीयाकमामान्या.नमस्येपवनमेगुन्थ॥ ॥ गथिंनङ्कमीह्श्रीश्रीवाल
मासमनक्लस्यनै.नमस्काववयानाउानउाङ्कह्ननेपङ्गयानाउाकउाह्ने
थउाहक्षसनाकउाल्वेङ्कथथिंनङ्कपवमन्ववमहेश्रीपवनमगुनु

१८

॥ १० ॥ ईलाककक्रमगाहि.ध्यानापर्यंकविक्रमथ॥ हेवियत्मणि
यपन.छउहिहृषकनुत्थफिं॥ गथिंनङ्कमेह्श्रीमाधकवावसा.
लाव.नमियकमङ्गिउमहाफेउाथनवाश्विखायह्नान.समिनथलव
याउाविह्नाकङ्क.ह्ननेपुह्ना [illegible] मिनायाउनु [illegible] श्वा द्विथलनपु
ङ्कह्नयाताश्चाजमपायेविह्नाकङ्कपथसपाल ॥ ११ ॥ वाधिसत्वामह

सत्वलोकाकोनामहद्धिकथ॥ प्रज्ञापारमिताविष्ठः प्रज्ञाकत्वत्वमार्गकथ
॥ गथिं नश्च श्री मं ह॥ श्री बाथ्वालसाध्व मं साव्रयाथाबाभिसत्वमहासत्वबायका
डाप्रज्ञायाय गुज्ञाया ध्रह्याउ न्वोन श्रे: धश्च नं प्रबाथ्वि सत्वयाग ध्वलंसा १८
वलाकयाव प्रज्ञापारमिता याउज्ञ नवल दान वि थाउ मत्वम हिमाथ्व
नाउ प्रज्ञापारमिता र्नाग न याउम प्रथमं वि ज्ञाकश्च धमि ह्री ॥ १२ ॥ ज्ञात्व

चित्तनविताबं. सर्वायाहृग्रप्रिंगलथ॥ सर्वायमामको क्रामा. हृयाह्वान
विपेथथ॥ गथिं नश्च मं ह॥ श्री वक भल साध उं न्हाम्ह मानं. सियदुथ
थविसह्ववथद थाउ ल्यो ब्वको ला नप प्र हनं समम कलो कयाव बाप ध्र
पुश्च प्रादिनं सक तीव वलपुश्च: सेकिंगाया ति ख श्रथिं मन पिं ह्यास
उवमाकयम क्रिउ यव मार्थ ह्वान ह्री सीं हिकाह्म स्य वि श्राकश्च ॥ १३

॥ धर्म्मद्दनपमितं शूस्वःस्वभुमद्धार्थ दर्शकाय ॥ पर्य्ययाते मकमाज्ञ
नाहीः निर्य्याण मूयमानिनी ॥ ॥ चितं त्रकर्म्मेः श्रीश्री माचक नेश्चो सा धर्म्म
दान पाक्रं कष्पष्ठ उ हः म त्रे हू कः ॥ हते म हा म द्रा दिउं वं हुमद्रा सउ
नमः श्वउपदसंविउंञः हते ग्र वक पुंविक म हा पाल उ पद्रं सा विउं ञः
हते ऊ ग न से ला न से श्व स पा ल या न पउ ग या य ऊ ग सम्र प्व म्र इ श्व ॥ वंट वा १८

परमार्थ विशुद्ध श्री स्कन्ध स्वभाव सुह त्व म महा तू ॥ सर्व्व सं पक्क कल्य श्रीमा
न मं इः श्री श्रीमकाच्छन्न ॥ ॥ चितं न त्र मेः श्री खाललिता श्री खाल ला श्रीवन दा
न प्रयमनार्थ निर्म्म न गुह्य न कि उ ग श्री ॐ क त्र सा वृ सं संश्च मा व स इः ग्र
उ ञ्ञ कि स्व य ष्टु म्रं कि कि न ः हनें स म स्तु सं प कि ब्वि य र्द्र म्र न्द्र लि मे ला
न बू प इः श्री श्व ला य म ला न या ल उ [illegible] श्री ला स ब न सं प ञ्च

हृदयाय श्री महेश्वरी ॥ १७ ॥ ध्यात्वा नृत्यानाथा पञ्चदशाक्ष ॥ पश्चि
मे याया पश्चिमान्नन्द नाथ शिवशक्ति मन्त्र पुस्तक कथ्य ॥ ॐ ॥ ॥
नमः सर्वबुद्ध वज्राय [illegible] जिन नमोस्तुते ॥ नमस्ते शून्य नाथाय त्व ९०
द्धबोधि जिन नमोस्तुते ॥ हनेत थिं नमः महेश्वरी बालसा श्री वज्रधातु
मादरि [illegible] याया नमस्कार [illegible] रिद्धि

मादिनी पञ्च [illegible] याया नमस्कार [illegible] नेताय
नय [illegible] स्थान [illegible] पुष्प याये नमस्कार [illegible] स्याये
नमस्कार [illegible] पुष्प याये नमस्कार ४ ॥ १ ॥
वज्र नाग नमस्ते स्तु वज्र कायव मानमः ४ ॥ वज्र श्री जिन नमोस्तुते त्व
द्ध [illegible] मानमः ४ ॥ हनेत थिं नमः वज्र नाग नाय [illegible] महेश्वरी बालसा

श्री वज्राभामागजम्ब कुलपूजयाकं नमस्कार ४ हन्तै वज्रयामतौल थलव
पूजयाकं नमस्कार, वज्रयामेश्री महाश्रीनिकक पूजयाकं नमस्कारलया
नाडभ्यानह्लल ४ ॥ २ ॥ वज्राम्बिक नमास्तुथं, वज्रहास नमोनमः ॥ ८१
वज्रवाघनमस्तु, वज्रहोवान नमोनमः ॥ हन्तै सम सैहान पूजयाय
कपूजयाकनमस्कार, सौन्दै हैवाडभ्यानपूजयाकै नमस्कारव ४ हन्तैवज्र

याकावनानैथानपूजयाकै, नमस्कारलयाना ॥ ३ ॥ अहवाइहवनम
स्तु, नमस्त, वज्रसैलव ४ ॥ गागनोदकवनमास्तुथे, नमस्त, हान
सैहव ४ ॥ हन्तैलावदन्तैगायवपूजयाकै नमस्कारलै, हन्तैहानस
लिवथलनपूजयाकै नमस्कारव, श्रीकासमसैविघ्न नाडभ्यानपूजयाकै
नमस्कारलयाना ॥ ४ ॥ मायाजालसान नमास्तुथे, नमस्त, वज्रनाककः

॥ नमस्कृ सर्वं सत्त्वयाके ज्ञानकाय्वन वास्कुन्दं ॥ हनें म्हायोऽआन हनूसऽआन
ख्व धा दैन मस्का लं हं दौ थूमदौ लिथू याकं कू ख्वया दैनमस्का व. ख्वल ग
ध्व सैलप्वल ह्मन सवौव थ्वान मस्या दैनमस्का लं. सन ल्ह स्यैनैन मस्का
व. हनैन्ह लाध्वम म्हाया ऽऽव पाऽ उपदंस विख्याऽ ऽविद्धा दव. ख्यया दैनम
स्का व याल्वाऽऽकुऽ म्हया दैनमस्कान ॥ ऽ ॥ कूं किपैंव कथा गहल्ल ८१

मथास्कु किपन्ह ॥ थ्वहिं हलसनैं पैंवकथा गकथा गुह्मन ऽन्वलियास
हैम्हाल्व नमस्का वयागुं श्राके होपहुऽल ॥ ॐ ॥ ॥ कूं धर्मसो
वऽपा थिवऽ ध्वकगा वकोह्मन मर्ह सर्वं कथा गाक. ज्ञानकाय्य
मरु श्रीपा विशुद्धि को. मया दाय थिगी ॥ हं दकूपालिहं वऽ थलस
माल कथा गाक याह्मन सनी लकस हं श्रीह्मन मर्हिं हऽ आस्का

थिंनक्षे ह्मानमूर्तिं थाबसाक्ष नहलप्रीतिकि पुसादउस्य हिउ आक्ष ८३
थथिंनक्ष थम्बीसी गीतिं याफलको पुवाकु स्विहस्यागुक्षे ह्मानथाय
विमस्य याकास. थथिंनक्ष यानाम. सीगीतिं छायंह ॥ हे पूनत्रय
त्रय ॥ पूनर्वाल. गथिंनेक्ष नामसीगीतिकियाफल ग्राम्भ लसा. समस्कें कथाता
कयाग्र. गुक्ष नेकयामहा ह्मान नाहाव उ शुरु गुक्षनल फलनथा लस्य क्षीनउ

थाविह्मानहुँ मिस्य. समस्कनथागाकयास्तगाकिम. समस्कमलपापद्विवि
उनथेस्कनकाउविद्धोकक्ष नाम. सैगीतिं याफलो ॥ हनेनथिंनक्ष खुक्ष
नाम. सैगीतिकी याफल थालसा ॥ ॥ दसयात्रमिता अय ॥ हिंगुविवलन
कक्षध्वक्ष नाम. सैगीतिकि थल वेपाउ. कथालाभ. ह्म नखाम ॥ हनेनथिंन.
गुपदवानवा थालसा. ध्वनाम. सैगीतिकि थलवपान्वानान. पूस्वकामह

यानयाथानसयहृथ्रियाकौ॥हनीवक्रूत्यनैध्वनामसैगिकिवलनपुउ
क्कमनह्छयया॰मेहासँप हिनायकूउ॰महायामयाथालसन्वानाउमहामै
यमियानाउ॰ध्वनामसे कि किवलनयान॰सम्सकैदुगौंकिसउानम्
म्वाल॥गवक्कस्यनैध्वनामसेगिकिवलनपाउाबान॰उाक्रूमयो॰क्रूदू
महाहेयहनलहृप्तूउ॰ध्वनामसेगिकिवलनपानैक्रूक्रूमहाहेयमोन् ८७

नहृव॥ ॥ककमानस्कैहयानिश्चाय॥क्रूक्रूलयथालस्तामयाऊया
हयप॥१॥जोवयाहयां॥२॥नायायाहयव॥३॥दुहिंक्रूयाहयां॥४॥ध्व
कनैकनहयाहयम॥५॥देवयाहयं॥६॥[illegible]यां॥७॥यक्कया
हयम॥८॥थकिजक्कमहाहेयच्यामाहवनहृयूउ॥ ॥इष्टखप्र
विनासतकत्रीश्रयव॥मकिनउहलह्याथो॰क्रू॰क्ष्वनामहृयउ॰

ध्वनामसींगिंकिंध्वलनपुष्पयाकहंनंध्वनामसींगिंकियापींस्यन.ह
नींहवडपाकिंध्वनामसींगिंकिंवानाया.हयगुवीन.हलयहडों
वाखेलसा.ध्वगुविविहालस.निस्य२ध्वपाथकाग्रयानाओ.महा ८७
यानयाकोड़नयानाओ.गनम्वक्रि.क्रीयान.कनखक्रयायागुपक्र.पाह
लनहक्रयानाओन्वानिओ॥ राख्याप्रनननहक्रिकहहम॥हनींमन

पाक्रक्रपनवासयानोंअन्वानडु.पगुथासःयक्रक्रओयाओ.ध्वमन
ध्यायान.हक्रयायकनगु.ध्ववनसध्वमनक्रनविनकियान.हे
व्याप्रनाड़क्रवयावनंगिकहक्रयायमका.क्रियास्थनींवीनघहह
पक्रहक्रयानाओन्वानमक्रहक्रयाकसा.क्रनखिलसींकाक्रहयओ
घकखेन॥याप्रनवालओक्रओ.ओनंहक्रयाप्रओसामर्थमक्रखका

नैश्रीनाम॰सैगिकिथाकुप्रसादनाक थ थकथायमाछ्रनै॥ या
नूस्मीमैथय॥ थमनक्रने॰श्रीनाम॰सैगिकिवकेनामकयाः
माछ्रनै थ थाछुयाकनननयहूव॰थ थिनगु॰डुखन थायमहि ८७
नगुहयथपै॰हथनहन॥ नामर्वमाग॥ थाथसमक मावयाक
म्मिविप्रयानाहथागु॰हवनहयुउा॰समस्कक्रु सवपै थस्लवाक

समस्कमनथागुथौक्रयानागुकार्थ्यसक्लनहयुउा॰समस्कडुथुबडु
र्लोकिमहि हगुमकिः थसमस्कहवननहयुउा॰समस्कथागबयाः
ज्ञमिखवोक्रू॰ऽथनामसैगिकीथवलपैवानथयाकनलव
हानवानाउाकथागकयापदसउानिउा॥ ना ज्ञानागथवनमेथ्य
र्यसथ्यसैकवि॥ हनैक्रथाहवनउौकहयौउालक्षीमहाप्रा

प्री हृकूडा॰श्रीस्वलावभक्विहृयाडा॥कल्यान सेंव्यघघहृ थीडाघथिन
म॰कृस्वनाक हृवङ्ग्रपा।हिमहाल्मलाडा॰केश॰ थयानाकनूपहृकूडा
महामैनाग्नहृ थिडा॰थ्वना मसैग्रानि डा ड्वालयाकव्याल॥ ॥ङ्ग्रयसे
कृहिं सेंपवकृ॰वि॥ हृवङ्ग्रपाहि॰नवम्हस्यनेंथगुविनाम सेंगिकि लाहृ
या यृडाथ्वम्ह्याससम लैल्वाक नेङ्ग्रसकृहिं हृवकृ डुडा॰हम्कुकिपाक्लें ८९

डा हृन॥ ॥ महाहयच्यूपसमनव॰सिप्रहृविङ्गात्यविग्राना॥
घुवि ह्रगाथिनघ फ्लयाकडाव सा॰समर्कि व्याथिनके ध्याडाच्वी
नम्ह्याव्याथिनघमेम्हालघुविग्याथिमैघ्रु विघ्रहृयूडा॥
॥ हृनमम्वम्॥ हृवङ्ग्रपाहि॰मस्वस्यनथ्वनामसेंगिकिपा
नयनडाम्रसया॰सन्यच्वानमङ्ग्रयो॰लनवदपिडा॥डडा

न्याकश्रीदयोआलपनेध्वपाणु छुक्कु मृदृब्र्याकछु दयोआ.सूतानैव क्वाम
याकुब्र्यापा कन क्राेयाक.ब्र्दयोआ हनै इद्रिपुमद्याआन्या नेब्र्याकदुक
कालै दयोआ. थपिन्द्रगु ध्वनामसैगिकिराम्रब्र्यूलवी जिआ. अक्रुस्रपमा
त्र. थपिनगुगुनलवयाआ॥ ॥ यन्यनन॥ हवक्रपाशिध्वनामसैगिकि
याताधर्म्मइ पुआगाथिनथालसा. मैगनइयोआनिश्चपनै॥ ॥ दीपरक्ष ८९

य॥ हवक्रपाशिवब्र्यूनैध्वनामसैगिकि. पालपलआब्र्सयादिननाकि
समदयकेसकइल्यौ.अर्धकावहस्थेयानगुथेस.मैम व्यौनाकयाथै
निर्म्मवइसथ्वानै.हनैगतिमइब्र्यादइललमानागतिनाव.इलअ
नृलनयदनावैक ध्यागाननगतिमाकवयोआ.हनैगथिनब्र्मैइश्री
यागुहलवायआयलसंध्वसैसावसमदइकनयपाक.कृध्रैमाक्रगति

वातकुम्ह॥ ॥ सर्वकर्मायाचन॥ द्याबाकाथ्वसमसकजझान ह्याउवान

र्पी॥ ॥ नमेघकोल॥ थाय कू ह्रिहि ट्रक याक कु ह्रिहि मदस्याउनिउ थ्वना

मसेगिहिपवलपघ्र याक विँ ना नलिन व्याथिंगुहल नायीउ हनेगां ८२

नगुहल नायीउ थान ना या ग्रस्यने थ्वनामसे गिंकिपवलपोउ थ्वग्र या

कनता वने मना नथ कू क्का या नागुत्री सि ह्रि ल वल पीउ हल॥ ॥

पञ्चस्वङ्कृथाय॥ हवज्रपानि ग्वग्र मन ध्यान थ्वनाम सेगिंकि वग्रस्य न

नकमनने वानिउ उग्र मन कृया हावल मिम्वान सेपञ्चङ्कयीउाव

गंथिंगुक्रावनु मिश्वाथाय दिवान्वकृथाय वाननाक गुक पा ग कपानि

स्यनेश्वनाउ एपी श्वनिउ कथा ग कवदनयायीउ हनेगथिन ग्र घट्या

वमि काह्लन वा यिउ घट्या वमी का था य कू कू धाल सा॥ ॥ दानपारमि

ता ॥ १ ॥ शीलपारमिता ॥ २ ॥ क्षान्तिपारमिता ॥ ३ ॥ वीर्य्यपारमि
ता ॥ ४ ॥ ध्यानपारमिता ॥ ५ ॥ प्रज्ञापारमिता ॥ ६ ॥ थ्व खुगू पा
रमिता परिपूर्ण्ण जुयाव ॥ दानपारमिताख्यान ॥ थिनगुम्ह थ्व वसान्त्र ल्वोव २०
नसयनासनवसनःसंवर्ण्ण, व यामिमिमू क्रिवेदुर्यावजसीरवभिलाष्ठ वा
कवूपवजनवखागायापछडाथ्व क्रि दानपारमिताख्यानथ्वभि इनला यि

डा ॥ १ ॥ शीलपारमिताख्यान ॥ हनी ॥ थिनम्ह शीलपारमिताखलसा शील
पारमिता ध्व खलव पूर्ण्ण, नमःमवनीमरु डाकी: नमवलनप्यरु थीजो
समसः ध्वलाकयाव्व दी हमह ज्ञनमनसा वभ्याकर्म्मनान सनाव पूर्ण
थ्व थिनम्ह शीलपारमीताप्राप्ते ह्रनथ्वनामसंसिकि पनलपानी ॥ २ ॥
क्षान्तिपारमिताख्यान ॥ हनेक्षान्तिपारमिता नेंख्वसा ॥ थिनम्ह क्षान्ति

धाय.कुमालसमफलायाथकुमायाय ह्र्योउ॥ भवनेमफकाकुमायधर्म
याय सामर्थ दयूउ चथिंनगुकाग्निपावमिकाया ह्मानतेपर्गुं ह्रयउ॥
३ ॥ विर्यपावमिकाधाय॥ हनेविर्यपावमिकाधाय.मेह्रापलावर्मि
ह्रयूउ ई संयपवाक्रमिङ्गावसा.थउ।गुङ्क्न्द्रोयसाधनमाखसउ।व मिह
ल्थीभवनेमफकाथमनेमहिछङ्क्न्द्रोपर्वधधाय.वैभनयावेगु लिसेथ ८१

थिंकृद्धिर्यपावमिकाधाय॥ ४ ॥ ध्यानपावमिकाधाय॥ हनेध्यान
नुपावमिकाधायगुगथिंनउथल ला.कोलनोकाल.रावनायाज्उ
हुन्याकानुसम्ब्रकिंदंस्यवाडी.पवमाथिलाव हम्रा शियध्यानपव
य.सामर्थदूथ्र.थथिंनथ्रध्यानपावमिकान.लेपूर्वहीउ॥ ८४
५ ॥ प्रज्ञापावमिकाधाय॥ ह्रनेधप्रज्ञापावमिकालामफ.यगथिं

नक्ष्व नसा क्षा दिं मडु. क्ष्मं मडु न्वू यं मडु. म्ला काल्ले मडु ध. ने वात्म
स्वनु प. विश्वव्यापिन क्ष. का वा ख्विल. या गान्द्व नमडु. क्ष्मा यं मडी ऊाय
ऊामनं नेला न पू व म ड्ढिऊा. महा न स्वस्व नु प क्ष्म ल थ वे नं स्वयमठि
ऊा क्ष थ थि नक्ष पुहा पान मिमान मंड का इऊा. न्व क्ष स्व नं धवाम. मी
गि ह्लि वनल पं चा नक्ष याक पद विनाय ऊा॥ ३ ॥ पून वपनं वऊ पा: ९२

धिवऊ वव॥ ऽ ऽ मी नाम सं गि ह्लिना म न्वू ऊाम नि॥ ह वऊ या गि ग
थि न क्ष वा ल सोध्व नाम सं गि ह्लि नाम या न्वू ऊाम गि ना थ प व प
ध्क वा ल स्वा॥ ॥ समनाधाय॥ ह वऊ पा गि ना थ प न्व प वा नमा
नु गान स्व पना ऊा न ऊा. ह नं क्ष थि वि स स्व या ऊा क ऊा॥ ॥ पून्र स्वधाय
॥ मि ऊान नं वान न ऊा॥ म्ही ऊान धाय॥ मिमान स्यनं वा न ह ऊा न्व मस

नेंगथिंनगुहूलनाकवाथकथावसा.गमानकजगकावांछिमत्वपनिस्यु
न.थन्पपदविथाउा.श्रीकियायुउाजक्रापायुउाहनेंथस्वयागोन्वलनें
ववथलसेंदुर्नहि.सउान्यमुम्वपोउा॥ ॥पुननपलेवङ्याहि॥हक्ला ९२
थववङ्पाःहिहनेंगथिंनगुहूलनथायीउानाथाबसा.थनाम.सेगिकिप
वलपिउाह्मयाक.हनेंथउाझुस.थपस्तूक.रु.कोदयकाउाकथिउा.गाम

स्पनउाम्हयागुस्वनायायीउा.उाम्हसया.नीन्वगुकनसगन्महुयमुम्वान.ह
नेंसम्हुन्हनेंप्रहालनयाउा.हुयमम्वाल.थम्हझुइयीउाम्हलसावङ्गा
हुसमेंथागकथ्यागुकुनसइविस्यमाकाउानदथिउाथम्हयाक॥ ॥
पुननपलें.वङ्याहि.न्हपुपाफ॥हवङ्पानिगमम्हस्यनेंथनाम.सेगि
किथवलपेंवान.गवम्हस्यनें.पवलपें.थपाथ्याफउाम्हस्यनेंजनल्वनेंस

म्यबं वङ्गयागु ज्ञानसं पापक्षय ॥ ॥ प्राप्तयी आयमाप्वज्ञानबा
युडा. माङ्क्रपद्नायिडा. थथिंन क्ष नाम. सं गि क्रियागु हिमाक्ष्न
॥ ॥ ॐ सर्व्व धर्म्माल वस्वलाव विशुद्ध. वङास्वभावा १ श्री ज्ञानप्रकृति
प विशुद्धो. सर्व्व धर्म्मा यदृक सर्व्व नथागत. ज्ञान कायमं हृश्री.
पविशुद्धिमा. मूपादायं कि जलदा १ सर्व्व नथागत. कृदय हनल ७६

ॐ वाल क्षायथ्व पव माङ्क्रवस मक्रु धर्म्मयागुस्वभाव. निर्मान क्षय
ङ्दाहव मद याङ्क्षांहवगु. थ्वनामसं गि ह्निथयागु क्र क्रा निवनव
सकि नदयकाह. ङम्रा. नैत्र क्षायथ्व सं सावयाक्र क्रपर्य्यक. मा
क्रा कि ह्वे. क्र ककानयागु ह्वथ्व क्षन ॥ ॥ ॐ ह्रुं ह्रिं १ हत्गावनक्ष
नकायवः गी श्वनमहास्वाच. सर्व्व धर्म्मा गात नामलेस्वपविशुद्धेव

म्लेखाऊह्लाबगाहूहल्ह्लाऽ४॥ हनैध्वग्निक्रलक्रा ह्वलनैमैह्रश्रीया
गुसबोलहृव.ख र्नैस ख्वयामाबसव्याफमानयानाऊविह्नाक
गुथ्वेह्लानम्र हिवापीश्वलयागुवन्वेनयाञ्जधिपर्कि.सनश्वर्कि
याभस्वादह्र.समस्र धर्म्मस्वद्रूप.गागनामन्न खायःश्वक्राकास
थं.निर्म्मवणु.धर्म्म खाकुयागुह्लान.आकास्तस.मार्हस विह्नाकथ्व

२७

स्पालहूल॥ ॥मकुविन्याऊ४॥ पूर्लिथ्वह्लानयागुमैहश्री
यामकुयाविन्यासधाश्वहूल॥ ॥ ॥:(०):॥ ॥अथ
वऊवव॥श्रीमान.हृद्ध्रुह्लह्ल मीऊलि४॥प्रुःमस्मनाथसीवक
हगावक्रकधावागमे४॥ थधिनमश्रा स्व ह्लनिकथ्वागाक स्वर्कं ठवा
ऊ.वऊयाग्निहूलसानऊर्कि.हर्लेमान योनाऊ.ध्वऊवठनामात्र

नेर्ह्रेकुस्कयानाओ.ब्राह्मणतियीहाओ जल पाओ.श्री ३ म्हाक्त्रुस्त नियाम
वंदनायानाउस्यानह्लं ॥ १ ॥ अन्येश्च वज्रविधेनाचे.गुह्ये
वज्रपाणि विधानस्ताद्ध क्रोधवज्राओवे.प्रावन्याचे विदं वच ॥ हनं ६७
थवज्रवलपाणिनक्रेख्वालता मा क्रयानाओ.कओक्रू.गुह्य यानाओ
वज्रपाणिप्रहिणिनंद की.क्रोधवज्राओसहिलनं.कओन्वाननं.माह

यानाओ.ध स्वलसं.समस्कस्यनेवच्चनपिक्लह्लल ॥ २ ॥ अन्
महासहनाथ.साधुसाधु गुह्याधिपं ॥ कृपास्माकं महानाथ.सैव
कैवल्यप्रापकश्च ॥ हनंनाथ वज्रपाणि न्हादिपननिस्यन ज्ञालक्ष्म
लसाहनाथहस्नाक्षमनिओ पनि हर्षमानह्लल.साधुसाधु क्रि
उ लस्मगुष्ठ नामि सीतिकियागुवाक्य सक्वनेओपनिस.छ्वपाचपं

निस्यनदयाक्ष्या दयकव.नउाथन गुकार्थ्य यानवि ह्निस्कवनी॥
३ ॥ ऊ गगन स्थानस्थनापन्न विम्न किं ह्लवकीक्रिस ४॥ स्थपामार्ग्य
विशुद्धार्थे मायाजाले नयादिन ४॥ पुगुं स्वगा थिंनक्ष आलेसाध्वक्र
गन सीसाव यामाक्र मार्गगु त्रिध्वकाम्न नापाकक्ष यानमाक्रनानक्र
गु.वाल्यानगुरुपुव न्ददानविडाक्षन ह्वन दु हिक्रमाच्वकृगुपिवि २७

ध्व.गतक्षस्यनैज्ञा कश्चान सा.मा थाकान नआ गदिक्लस्वायध्वमाया:
ज्ञालसथ्पुगुकनकुसक्षास्य नयागु ध्वस्वइन॥ ५ ॥ गम्भीरोदार
वैपुल्य महार्थोऽल्पादर्थ कृत॥ वज्ञानी विषयाध्व वसम्यो[illegible]वृद्ध
हासि नमि क्रि ४॥ ध्वगाथिंनक्षे मैइ श्रीआलसाहवुगपालि गीहीव
आय.गाथिंनक्ष ध्वनाम सैतिलियागुरुवश्चानसाक्षे ह्लिगालिङ्वडलि

प्रिविधकथाहाभवमहूःक्रायमक्रिडा।ध्यहामँइत्न्नकोमइडइ
मगुनत्वह्नानत्व।नडावनगुथ्वक्रर्थद्वलोकयाल [illegible] यःक्तु
पकावय्याकगुध्वघमवहामघूसमस्कथ्वकथागाकयाश्चनसँप ९८
हिहत्याडान्वानगुसंम्घक्वैवह्नभाक्वम्हेलिपलिस्यनक्वादसवि
लगुद्वथ्वहान॥ ग ॥उपसँहावगसथा४पचेरः४॥ थविउपसँ

हानयागसथागुहापगुरसमकं॥ थविवर्म्मसेंगिलिह्नानागुथापुसँ
साथ्वद्वहान॥ ॥ ॐ ॥ ॥आर्य्यमायीगोसालाद्वीउ
गोसाहस्त्रिकाःमहायानानक्कुर्म्म४पाकिसमाथिगालःपद्लाद्ह
गवकनथागाकश्रीमायवमूनिकुषिकहराक्नोमेंहश्रीइस्नसे
चस्यपवसाःर्थनामसेंलिलिपाविःसमाप्ता॥ [illegible]

मायाजालकन्कु सफ्रास्यकयागु जिमघूदालगं थस.मत्[illegible]

स.ध्वकन्केस्वानगुथ्व मनपभ्रजाग स्वानगु.समाधिजाल

सचिकास्यकयागुथ्व रवग्रीष्म ब्यूमनिनं फ्रानाओकयागु रव.म

हरःश्री हानेस निलनथ्वनलपं विद्धा कगुथ्वपलमार्थजागाना

मसंतिहियागुरव पतिसमाफरनथ्वगुरुह४॥ ॥घ थनं

२८

ह्रुपूलवा४ह्मकुस.दोचजानीरा थसवल्हंस्वीत्रजानी:

श्राःघ॥ नुवैवादिमहाश्रमगानं भुह४॥ ॐ ॥अदिमुवै

वाःस्तुवैठासविकदालनविदंह पन्दिनास्वथनीयमहदुवं

हपाले॥ ॥ भुह४॥ ॥

१०१

